

दैनिक

मीडिया ऑडिटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित



अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें FIR दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का CEO नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए SIT ने और समय मांगा है।

रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ

राममंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी

20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश

सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है। चढ़ावे में

अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुण और रामशंकर उर्फ टिन्नु की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा, चंपत राय के करीबी टिन्नु के घर से सोना मिला था।

14 जून को हुआ था SIT का गठन, 6 दिनों तक जांच की थी... SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत (IAS), IG लखनऊ रंज किरण शिवकुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के विशेष सचिव (वित्त) नीलरतन कुमार शामिल हैं। टीम ने राम मंदिर की 6 दिनों तक जांच की थी। राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर सीएम योगी ने 14 जून को SIT का गठन किया था।

भरत एनकाउंटर पर अनिरुद्धाचार्य बोले-सरकार को जनता पापी कहेगी

गो-ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए

पटना, एजेंसी। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत एनकाउंटर पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, 'जनता की हत्या करना किसी भी राजा के लिए पाप है। इस हाल में जनता आपको पापी राजा कहेगी। भरत ने किसी की हत्या नहीं की थी, अगर की होती तो एनकाउंटर कीजिए। गो और ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए। किसी भी हत्या से बचना चाहिए। हर साल उसका

शरण में आए व्यक्ति को मारना पाप है



भरत ने अपराध के मकसद से हथियार नहीं उठाया है... अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा, 'उस युवक ने किसी की हत्या करने या अपराध करने के मकसद से हथियार नहीं उठाया था। वह अपने इलाके और समाज का काम करवाने के लिए अधिकारियों के पास गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। ऐसे में उसने विरोध का रास्ता अपनाया। इसके बावजूद पुलिस ने उसे मार डाला। जब हम में से किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई न कोई व्यक्ति आगे आएगा ही।'

गांव बाढ़ में डूब जाता था। वह अपने गांव की रक्षा के लिए नेताओं-अफसर से भिन्नते कर रहा था। अनिरुद्धाचार्य ने कहा- नेताओं को समझना चाहिए कि वे जनता से वोट लेते हैं। अगर वोट लेने के बाद उसी जनता को दबाना और मारना शुरू कर देंगे, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

: झीफ बॉक्स :

केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा

21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था



नई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि, इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। 65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे।

बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता-पिता और बेटी की हत्या

बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड फरार दोनों से मिलने फ्लैट में पहुंचा था परिवार, वहीं शव मिले।

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के के.आर.पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में एक ही परिवार के तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 52 साल के सोमसुंदर, उनकी पत्नी 48 साल की मुथुलक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया के रूप में हुई है।

माता-पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ रहते थे। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक, बड़ी बेटी श्वेता पिछले दो महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी।

टीएमसी ने ममता को पार्टी प्रमुख बताया: चुनाव आयोग को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी; एक दिन पहले बागी गुट ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग को पार्टी के पदाधिकारियों और नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट भेजी है। इसमें ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है। सुभ्रत बक्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट 20 जून 2026 तक की

डेरेंक और डोला संयुक्त सचिव... TMC की लिस्ट के मुताबिक, डेरेंक ओ'ब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव हैं। नेशनल वर्किंग कमेटी में कुल 24 नेताओं को नाम है। इसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मलय घटक, गौतम देव, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, बुलु चिक बराइक, मुकुल संगमा, बैस्वानोर चट्टोपाध्याय, बीरबाहा हांसदा, कल्याण बनर्जी, सोमंत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष को भी रखा गया है।

संगठनात्मक स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। इससे एक दिन पहले TMC के बागी गुट के नेता

ऋतब्रत बनर्जी ने TMC की पैरलल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना था। इधर, TMC ने बागी गुट में शामिल होने वाले 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ममता जो सीट हारी, वहां ईवीएम-वीवीपेट सुरक्षित रखने का आदेश

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई की। कोर्ट ने मतगणना से जुड़े सभी अहम साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ईवीएम, वीवीपेट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच होगी। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र रहे शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक हादसा मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9, जीवन और मौत से लड़ रहे 69 मजदूर

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले (पेरियापालयम के पास) में एक प्राइवेट सीफूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनी में अमोनिया गैस लीक होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार सुबह एक और मजदूर की मौत की पुष्टि की है। इसे राज्य के हालिया सालों में सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक माना जा रहा है।



कैसे और कब हुआ हादसा? बता दें कि यह हादसा 21 जून की रात को कनिंगहम-मंजंगरनई इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ। गैस लीक होने के समय कई मजदूर वहां ड्यूटी पर तैनात

थे। अचानक गैस लीक होने से वहां हड़कंप मच गया। **समझिए कितने लोग प्रभावित हुए और अभी क्या स्थिति है?** मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में कुल 80 लोग गैस की चपेट में आए। वहीं हादसे वाली रात 21 जून को 2 लोगों की मौत हुई थी। सोमवार शाम तक यह आंकड़ा 6 पहुंचा और मंगलवार सुबह 3 और मजदूरों के दम तोड़ने के बाद कुल मरने वालों की संख्या 9 हो गई है।

प्रभावित मजदूरों में 69 का इलाज अभी भी जारी... प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रभावित लोगों में से 2 मजदूर पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 69 मजदूरों का इलाज अभी भी चेन्नई और तिरुवल्लूर के अलग-अलग अस्पतालों (जैसे राजीव गांधी सरकारी अस्पताल, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, वेल्स और वेंकटेश्वर अस्पताल) में चल रहा है।

मोदी बोले- देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं; नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम मोदी ने देश में दशकों से जारी नक्सलवाद हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हथला बोला। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग अब संविधान दिखा रहे हैं, उनके हाथ तब कांप रहे थे, जब नक्सली हिंसा चरम पर थी। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने सोमवार को कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों को पिछड़ा क्षेत्र करार दिया था। लेकिन NDA सरकार ने उन इलाकों को बदलने की चुनौती स्वीकार की, वहां के लोगों को निराशा से बाहर निकलने में मदद की और उनमें तरक्की की उम्मीदें जगाईं। पीएम ने आगे कहा कि सरकारें आई



थी। लेकिन NDA सरकार ने उन इलाकों को बदलने की चुनौती स्वीकार की, वहां के लोगों को निराशा से बाहर निकलने में मदद की और उनमें तरक्की की उम्मीदें जगाईं। पीएम ने आगे कहा कि सरकारें आई

प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रहित के प्रति उनका समर्पण, साहस और विचार आज भी देशवासियों को प्रेरित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राष्ट्रभक्त, विद्वान और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी अटूट निष्ठा, साहस और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान देश की सामूहिक स्मृति में सदैव



अंकित रहेगा और विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि राष्ट्र और समाज की निःस्वार्थ सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहे डॉ. मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श देश की प्रत्येक पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहें।

ईरान बोला- होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा

इसकी देखरेख हम अपने तरीके से करेंगे

तेहरान/वाशिं गटन डीसी, एजेंसी। ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका-ईरान बातचीत में अहम वातांकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग की देखरेख आगे ईरान अपने तरीके से करेगा, हालांकि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन जारी रहेगा।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक, क्विटजरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के बाद गालिबाफ ने दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। गालीबाफ ने कहा, हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, आज भी नहीं करते और भविष्य में भी सावधान रहने में ही समझदारी होगी।



दावा: उद्धव के 7वें सांसद भी शिंदे-गुट में आना चाहते थे शिवसेना नेता बोले- मंत्री पद चाहते थे, बात नहीं बनी, ठाकरे के बगल में बैठते हैं

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना नेता रामदास कदम ने दावा किया है कि उद्धव गुट के छह सांसदों के अलावा एक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होना चाहते थे। कदम ने सोमवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि सातवें सांसद ने भी कामगार पर साइन कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की मांग रखी। एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वह वापस चले गए। हालांकि, कदम ने उस सांसद का नाम बताने से



इनकार करते हुए कहा, 'मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते हैं।' सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 लोकसभा सांसद

कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। डिटी सीएम ने कहा, 'जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष-बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब 40 विधायक थे और अब हमने छक्का लगाया है।' उन्होंने कहा, 'हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसलिए आज ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए।' उद्धव के शिवसेना का मुखिया रहते पार्टी में 4 साल में यह दूसरी बड़ी बगावत है।

यूपी में आंधी-बारिश से पेड़-पोल उखड़े, कार पर गिरे एमपी में बिजली, पंजाब में पेड़ गिरने से 2 मौतें, मानसून 24 घंटे में मुंबई पहुंचेगा



भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ/ पटना, एजेंसी। देश में 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून सोमवार को आगे बढ़ा है। पश्चिमी तट पर मुंबई से 20 किमी दूर अलीबाग तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में ग्री-मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से दो लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार दोपहर बाद बारिश हुई। बस्ती में आंधी-बारिश की वजह से पेड़-पोल उखड़ गए। एक पेड़ कार पर गिरा। सड़क पर पोल गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। पंजाब के अमृतसर में आंधी से पेड़ गिरने से

8 राज्यों में गर्मी का असर, तापमान 40 डिग्री पर... मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई शहरों में बुधवार को पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 43.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में 43 डिग्री, यूपी के बांदा में 41.4 डिग्री, तेलंगाना के आदिलाबाद में 41.3 डिग्री, गुजरात के गांधीनगर में 41 डिग्री, मध्य प्रदेश के खजुराहो 40.6 डिग्री, ओडिशा के बौध में 40.2 डिग्री और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 40 डिग्री रहा।

बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई।

दिल्ली के सुभाष नगर में 3 महीने से 200 परिवारों को मिल रहा दूषित और बदबूदार पानी, आखें मूंदे बैठे अधिकारी

नईदिल्ली, एजेंसी। भीषण गर्मी के बीच हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नगर ब्लाक-2 में दूषित जलापूर्ति की समस्या दिनानुदिन गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से उनके घरों में पीने योग्य पानी के बजाय काला, बदबूदार और गंदा पानी आपूर्ति हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के साथ-साथ घरेलू कार्यों में भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र की दो गलियों के करीब 200 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इलाके में पेयजल पाइपलाइनें सीवर लाइनों के समानांतर गुजरती हैं। इनमें से अधिकांश सीवर लाइनें करीब दो दशक पुरानी हैं और नियमित सफाई नहीं होने के कारण अक्सर ओवरफ्लो होती रहती है। लोगों का आरोप है कि इसी वजह से सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा है और जलापूर्ति दूषित हो रही है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत देकर पेयजल और सीवर लाइनों की संयुक्त जांच कराने और रिसाव वाले स्थानों की पहचान



स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावों के बीच सुभाष नगर ब्लाक-2 की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। भीषण गर्मी में जहां पानी राहत का साधन होना चाहिए, वहीं यहां दूषित जलापूर्ति लोगों के लिए परेशानी और बीमारी का कारण बन गई है। अब क्षेत्रवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संबंधित विभाग जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करेगा। तीन महीनों से काला बदबूदार पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, विभाग में जाओ तो अधिकारी टाल कर भगा देते हैं। गंदे पानी से मोहल्ले में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोज विभाग के चक्कर लगा रहा हूं, पर शिकायतों के बावजूद आज तक समाधान नहीं मिला। पेयजल के लिए रोज जार खरीदने पड़ रहे हैं, वहीं कई घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे घर का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया। जल बोर्ड पाइपलाइन और सीवर लाइन की जांच कराए, सीवर जाम रहने से ओवर फ्लो पोता है। सीवर लाइन ठीक होने से ही समस्या का स्थायी समाधान होगा।

कर मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन अब उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन अधिकांश तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुछ घरों परिवारों को दूषित पानी की समस्या का में निजी बोरिंग होने के कारण पानी की सामना करना पड़ रहा है।

बीमारी और बढ़ते खर्च की दोहरी मार

दूषित जलापूर्ति के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कई परिवारों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा संक्रमण और अन्य जलजनित बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। पीने और खाना बनाने के लिए लोगों को बाहर से पानी के जार खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच साफ पानी की व्यवस्था करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

शिकायतें बहुत, समाधान नहीं

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावों के बीच सुभाष नगर ब्लाक-2 की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। भीषण गर्मी में जहां पानी राहत का साधन होना चाहिए, वहीं यहां दूषित जलापूर्ति लोगों के लिए परेशानी और बीमारी का कारण बन गई है। अब क्षेत्रवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संबंधित विभाग जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करेगा। तीन महीनों से काला बदबूदार पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, विभाग में जाओ तो अधिकारी टाल कर भगा देते हैं। गंदे पानी से मोहल्ले में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोज विभाग के चक्कर लगा रहा हूं, पर शिकायतों के बावजूद आज तक समाधान नहीं मिला। पेयजल के लिए रोज जार खरीदने पड़ रहे हैं, वहीं कई घरों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे घर का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया। जल बोर्ड पाइपलाइन और सीवर लाइन की जांच कराए, सीवर जाम रहने से ओवर फ्लो पोता है। सीवर लाइन ठीक होने से ही समस्या का स्थायी समाधान होगा।

गुरुग्राम में 5 माह में कटे 700000 से ज्यादा के चालान, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग



गुरुग्राम, एजेंसी। गुरुग्राम की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस सख्ती से नकेल कस रही है। कैमरों और फिजिकल जांच के जरिए रोजाना लाखों रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, फिर भी कई वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में वह लोग भी हैं, जिनके चालान पहले भी काटे जा चुके हैं। इस साल मई महीने तक यातायात पुलिस ने कुल 7 लाख 12 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए हैं। यातायात पुलिस शहर में लगे हाईटेक कैमरों के माध्यम से रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने और ओवरस्पीड जैसे उल्लंघनों पर चालान कर रही है। लेकिन हेरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग इन चालानों को भर ही नहीं रहे। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लाखों चालान पेंडिंग पड़े हैं। पुलिस अब सिर्फ आनलाइन चालान तक सीमित नहीं है।

लाखों रुपये के चालान बकाया मिले: विशेष अभियान के तहत फिजिकल जांच के दौरान जब पुराने बकाया चालान वाले वाहन पकड़ में आते हैं और चालक के पास कोई कागजात नहीं मिलते तो उनके वाहनों को मौके पर ही सीज किया जा रहा है। कई वाहनों पर लाखों रुपये के चालान बकाया मिले हैं। पिछले तीन महीने में 50 से ज्यादा दोपहिया और चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें पिछले महीने एक बाइक ऐसी भी पकड़ी गई, जिस पर करीब 12 लाख रुपये के चालान पेंडिंग पड़े थे। बाइक पर 81 से ज्यादा बार चालान हो चुके थे, लेकिन बाइक चलाने वाला व्यक्ति फिर नियम तोड़ने से बाज नहीं आया था। यातायात पुलिस ने हाईवे पर हादसों से बचाव और लेन ड्राइविंग करने को लेकर जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। देखा जाता है कि भारी वाहन चालक अपनी लेन के साथ-साथ अन्य लेन में भी चलते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर रात के समय खतरा और बढ़ जाता है। भारी वाहन चालक नियमों को दरकिनार कर हाईवे पर सभी लेन में वाहन दौड़ाते मिलते हैं।अब यातायात पुलिस ने इसकी नितर निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इन्हें माइक भी दिया गया है। पुलिसकर्मियों माइक पर बोलकर भारी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

क्या आपके पास भी बीएस-4 या बीएस-6 गाड़ी है

दिल्ली में बदले पीयूसीसी नियम, किसे राहत-किसकी बढ़ी टेंशन

रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली सरकार प्रस्तावित पीयूसीसी-3 योजना के तहत नई बीएस-4 गाड़ियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप ले रहा है। **बीएस-6 गाड़ियों को मिलेगी छूट:** सूत्रों के अनुसार, 6 साल तक पुरानी बीएस-6 निजी गाड़ियों को हर साल पीयूसीसी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। इनकी वैधता 3 साल तक हो सकती है। सरकार का तर्क है कि बीएस-6 वाहन पुरानी बीएस-4 गाड़ियों की तुलना में 82 प्रतिशत कम पीएम और 25 फीसदी कम एनओएक्स उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन्हें राहत दी जा सकती है।

बागी नेताओं पर ममता बनर्जी का पलटवार, EC को सौंपी पदाधिकारियों की नई सूची, खुद को बताया टीएमसी अध्यक्ष

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में विधायकों और सांसदों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ईसी) को अपने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की एक नई सूची भेजी है। इसमें यह बात दोहराई गई है कि ममता बनर्जी ही पार्टी की प्रमुख बनी हुई हैं। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि चुनाव आयोग (ईसी) और डोला सेन और कोषाध्यक्ष के रूप में सुभाशीष चक्रवर्ती का भी नाम है। राष्ट्रीय कार्यसमिति में ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरक ओ'बायन, डोला सेन और सुभाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। अन्य सदस्यों में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मोर्लाय घटक, गोतम देब, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, बुलु चिक बड़ाइक, मुकुल संगमा, बेक्सनोर चट्टोपाध्याय,



राष्ट्रीय महासचिव (लोकसभा नेता) हैं। पदाधिकारियों की सूची में संयुक्त सचिव के रूप में डेरक ओ'बायन (राज्यसभा सांसद) और डोला सेन और कोषाध्यक्ष के रूप में सुभाशीष चक्रवर्ती का भी नाम है। राष्ट्रीय कार्यसमिति में ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरक ओ'बायन, डोला सेन और सुभाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। अन्य सदस्यों में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मोर्लाय घटक, गोतम देब, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, बुलु चिक बड़ाइक, मुकुल संगमा, बेक्सनोर चट्टोपाध्याय,

बीरबाहा हांसदा, कल्याण बनर्जी, सोगत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष शामिल हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और पश्चिम बंगाल टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर लिस्ट किया गया है, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सदस्य और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता के तौर पर लिस्ट किया गया है।

बागी गुट ने अरुण रॉय तो बनाया अध्यक्ष

चुनाव आयोग को यह जानकारी टीएमसी के बागी गुट द्वारा कोलकाता में एक विशेष सत्र आयोजित करने और एक समानांतर संगठनात्मक दांचा घोषित करने के एक दिन बाद दी गई है। इस दावे में वरिष्ठ विधायक अरुण रॉय को पार्टी अध्यक्ष चुना गया, जिससे सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अधिकार को चुनौती दी गई। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि यह कदम पार्टी में संवैधानिक संकट के कारण उठाया गया है। उनका तर्क था कि फरवरी 2022 में गठित पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। बागी गुट ने कहा कि यह खास बैठक टीएमसी के संविधान के मुताबिक बुलाई गई थी। उन्होंने नई नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। हालांकि, ममता बनर्जी के गुट ने इस कदम को खारिज कर दिया। वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि बागी नेताओं के पास ऐसी बैठक बुलाने या पार्टी के संगठनात्मक दांचे में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।

ईरान को 300 अरब डॉलर कौन देगा मार्को रुबियो के दौरे को लेकर खाड़ी देशों की बढ़ी चिंता

वाशिंगटन, एजेंसी।

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते ने खाड़ी देशों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल खाड़ी देशों में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि समझौते के तहत ईरान को कितना पैसा मिलने वाला है और वो पैसा कौन देगा? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीन दिवसीय दौरे पर पश्चिम एशिया पहुंचने वाले हैं। जहां वे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी प्रशासन पश्चिम एशिया में अपने सहयोगी देशों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता उनके हित में है। हालांकि खाड़ी



देशों की चिंता बनी हुई है। अधिकांश देशों ने अमेरिका, इराक और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों का स्वागत किया है। हालांकि, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर बातचीत सफल होती है तो ईरान को क्या-क्या रियायतें मिल सकती हैं और क्या यह समझौता ईरान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने में सफल हो सकेगा या नहीं।

खाड़ी देशों की चिंता की वजह क्या है: सबसे अधिक चर्चा ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दिए जाने वाले 300 अरब डॉलर के पैकेज को लेकर हो रही है। शांति समझौते के ज्ञापन में कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर देगा। इस योजना को लागू करने की रूपरेखा अंतिम समझौते के तहत अगले 60 दिनों में तय की जाएगी। खाड़ी देशों को आशंका है कि इतनी बड़ी राशि ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने के साथ-साथ उसकी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। इसके

अलावा, कई देशों को इस बात पर भी आपत्ति है कि हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये चिंताएं उन देशों के लिए और भी ज्यादा अहम हैं जहां अमेरिकी सैन्य अंशु मौजूद हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर, अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख साझेदार हैं। ईरान के साथ हुए संघर्ष के दौरान इन देशों को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें नागरिक दांचे को भी निशाना बनाया गया था।

वाशिंगटन से जवाब चाहते हैं सहयोगी देश: रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है। इसके

चीन के साथ करीबी बढ़ रहा बांग्लादेश, रिपोर्ट में दावा- 24 जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश चीन से जे-10सीई बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है। डेली वाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सोमवार से शुरू हुई चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश 24 चीनी जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ढाका और बीजिंग रक्षा, बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।

चीन के साथ किस एजेंडा पर बातचीत करेगा बांग्लादेश: रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है, 'हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अगस्त तक लड़ाकू विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे।' अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विमान की कीमत लगभग 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर आती



गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत को तेज करने के लिए पिछले सप्ताह एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ढाका आया था। वहीं, बांग्लादेशी अधिकारी यात्रा के दौरान चीन के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर प्रस्तावित सौदे के प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देंगे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी यह चर्चा व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके बारे में अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे बांग्लादेश-

चीन संबंधों को नई ऊंचाई मिल सकती है। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देश 17 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें 15 समझौता ज्ञापन (एमओयू), दो समझौते, एक प्रोटोकॉल और एक कार्ययोजना शामिल है।

चीन को बताया करीबी दोस्त: चीन यात्रा के बारे में विदेश सचिव ने कहा, 'चीन

बांग्लादेश का बहुत करीबी मित्र, रणनीतिक साझेदार और महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं विकास सहयोगी है। वर्तमान में हमारे द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक सहयोग के साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। ' विदेश सचिव

ने बताया कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना पर भी चर्चा होगी। हालांकि, उन्होंने इस विषय पर अधिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिन्पिंग की चार प्रमुख पहलों पर भी चर्चा होगी और बांग्लादेश उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा।

किन मुद्दों पर होगी चर्चा

इसके अलावा, पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों और बांग्लादेश-चीन सैन्य सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चीन के डालियान में आयोजित होने वाली 17वीं वार्षिक न्यू वैपियंस बैठक, जिसे आमतौर पर 'समर दावोस' के नाम से जाना जाता है, में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष, नीति, निर्माता, कारोबारी नेता, नवाचार विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जानकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य, उभरते नवाचारों और सार्वजनिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ रहमान की उच्चस्तरिय द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं। इसके अलावा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया सहित अन्य भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताओं की व्यवस्था की जा रही है। विदेश सचिव ने बताया कि मेजबान देश चीन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों को लेकर चर्चा जारी है।

डस्टबिन खुद बुलाएगा सफाईकर्मों, नोएडा में शुरू हुई देश की पहली स्मार्ट कचरा व्यवस्था; कैसे काम करेगी ये तकनीक



नोएडा, एजेंसी। नोएडा प्राधिकरण शहर में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि वह सड़क पर किसी भी प्रकार का कचरा न फेंके। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकी से लैस कचरा पेटियों (डस्टबिन) की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही इन डस्टबिन में कचरा भर जाएगा, कंट्रोल रूम में घंटी बजने लगेगी। इससे प्राधिकरण का जन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाएगा और कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह व्यवस्था देश में पहली बार नोएडा में लागू की जा रही है। प्रथम चरण में इसे सार्व जनिक शौचालयों पर लागू किया जाएगा। प्राधिकरण ने शहर में 320 सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना की है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित हो रहे हैं। इस मॉडल की सराहना करते हुए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (महुआ) ने अन्य नगर निगमों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन डस्टबिन को शौचालयों के बाहर स्थापित किया जाएगा, जो जीपीएस और सेंसर से युक्त होंगे। इनकी मानिट्रिंग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) द्वारा की जाएगी, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सभी गाड़ियों की निगरानी होती है। हालांकि नियमित डस्टबिन की सफाई और कचरा कलेक्शन का कार्य जारी रहेगा। यदि डस्टबिन में कचरा भर जाता है और कंट्रोल रूम पर घंटी बजती है, तो कचरा उठाने वाली गाड़ी मौके पर पहुंचकर डस्टबिन से कचरा हटा देगी। इससे सड़क पर कचरा फेंकने वालों को रोक जा सकेगा। शहर की जनसंख्या के अनुसार, वर्तमान में साढ़े छह लाख की आबादी के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा था। नई जनगणना के अनुसार, लगभग पांच लाख मकान और 14.5 लाख की आबादी सामने आई है। इस बदलाव के चलते कचरा कलेक्शन के लिए नए नियमों के तहत कार्ययोजना बनाई जाएगी। कम से कम दो टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे गली, गांव, बस्तर, सोसायटी और बाजारों में कचरा एकत्र करने का कार्य किया जाएगा।

यह कौनो भी देखें: जनगणना के बाद शहर की स्थिति नई जनगणना के हिसाब से करीब पांच लाख मकान नई जनगणना के हिसाब से करीब 14.5 लाखपुरानी जनगणना के हिसाब से करीब दो लाख मकान पुरानी जनगणना के हिसाब से शहर की आबादी 6.5 लाख शहर में शौचालयों की स्थिति पब्लिक टॉयलेट : 117 कम्युनिटी टॉयलेट : 67 प्िक टॉयलेट : 16

ट्रैक्टर जब्ती विवाद में वनकर्मी द्वारा फायरिंग, जांच के आदेश



मीडिया ऑडीटर, सिंगौली (निप्र)। गढ़वा थाना क्षेत्र के माझी गांव में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच ट्रैक्टर जब्ती को लेकर विवाद का मामला सामने आया है सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आने के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार संजय टाइगर रिजर्व की सन घड़ियाल अभयारण्य टीम अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त होने के संदेह में एक ट्रैक्टर को जब्त करने माझी गांव पहुंची थी हालाँकि ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित ट्रैक्टर मौके पर खाली खड़ा था और उसके साथ कोई ट्रॉली या रेत मौजूद नहीं थी, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान वन विभाग के कर्मचारी लुगभग तीन राउंड हवाई फायर किए, जिससे मौके

पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया घटना की जानकारी मिलने पर गढ़वा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया था। प्रभारी विद्याभारती तिवारी ने बताया कि मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद थी और केवल एक ट्रैक्टर खड़ा मिला था प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह भी सामने आया है कि संभवतः सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर के आधार पर कार्रवाई की गई हालाँकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित बताया है और पारदर्शी जांच की मांग की है उनका कहना है कि बिना उचित सत्यापन के की गई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया इस मामले पर संजय टाइगर रिजर्व के उप निदेशक राजेश काना ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही जांच के लिए एक टीम गठित कर गांव भेजी गई है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विकसित सीधी की दिशा में एक और कदम, रीती पाठक ने किया नवीन जनपद भवन का भूमिपूजन

5.25 करोड़ की लागत से बनेगा जनपद पंचायत कार्यालय भवन, सुगम प्रशासन और समग्र विकास पर जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के ग्राम पंचायत नौद्विया में 5 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन का भूमिपूजन समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ इस अवसर पर क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में विधायक रीती पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह ने अध्यक्षता की भूमिपूजन के साथ ही ग्रामीण अंचल में बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि विधायक रीती पाठक ने कहा कि नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन केवल एक प्रशासनिक परिसर नहीं, बल्कि आमजन के लिए सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं का केंद्र होगा उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह



सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना न पड़े और सभी कार्य सरलता से संपन्न हों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और जिले में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में

शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। सांदीपनि विद्यालय, लाँ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल उन्नयन, डिजिटल लाइब्रेरी, कन्या महाविद्यालय ऑडिटोरियम, बस स्टैंड, सब्जी मंडी एवं अन्य परियोजनाएं जिले के विकास को नई दिशा दे रही हैं। विधायक ने

कहा कि ‘विकसित भारत–2047’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए ‘विकसित सीधी’ की मजबूत नींव रखना आवश्यक है जिसमें सभी विकास कार्य गुणवत्ता और समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह ने भी नवीन भवन के भूमिपूजन पर क्षेत्रवासियों को



शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भवन ग्रामीण नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास प्रिया

समाजसेवीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे सभी ने इस पहल को क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया यह परियोजना आने वाले समय में ग्रामीण प्रशासन को अधिक सशक्त, सुलभ और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

जनपद स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता में स्व-सहायता समूहों ने दिखाई पाक-कला की प्रतिभा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए जनपद पंचायत सीधी के सभागार में रसोइया सह-सहायक (कुक-कम-हेल्पर) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं जनपद स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ प्रतियोगिता में विभिन्न स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने स्थानीय खाद्य सामग्री से पोष्टिक, स्वादिष्ट और संतुलित व्यंजन तैयार कर अपनी पाक-कला एवं नवाचार क्षमता का

उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में 15 स्व-सहायता समूहों ने भाग लिया और विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, पोषण एवं स्वाद को बेहतर बनाने की दिशा में अपने अभिनव प्रयास प्रस्तुत किए प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, स्थानीय खाद्य परंपराओं को बढ़ावा देना तथा महिला समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक रीती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है उन्होंने कहा कि विद्यालयों में परोसा जाने वाला मध्यान्ह भोजन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव तैयार करता है जिस ममता और समर्पण के साथ एक मां अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है, उसी भावना से स्व-सहायता समूह की महिलाएं हजारों बच्चों तक पोष्टिक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही हैं उन्होंने समूहों से भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं संतुलित पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि

स्वस्थ और पोषित बच्चे ही विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक ने भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण और संतुलित भोजन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतियोगिता में तैयार व्यंजनों का मूल्यांकन स्वाद, पोषण गुणवत्ता, स्वच्छता, प्रस्तुतीकरण तथा नवाचार के आधार पर किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशर्वांगक शाला मिसिरगांव की महिला प्रगति स्व-सहायता समूह को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपये प्रदान किए गए।

जनसुनवाई में 355 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं, त्वरित निराकरण के निर्देश

सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 355 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक

अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर उपस्थित हुए। सीईओ ने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक लॉबि न रखा जाए और प्रत्येक मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई को संबोधित करते हुए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह प्रक्रिया आमजन की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ प्रत्येक शिकायत का निराकरण करें।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को उनके प्रकरण की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो जनसुनवाई में आने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों की प्रारंभिक सुनवाई कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं जिससे कई प्रकरणों के समाधान की दिशा में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई।

देवसर अस्पताल में खुले में मेडिकल वेस्ट जलाने का मामला

मीडिया ऑडीटर, सिंगौली (निप्र)। देवसर अस्पताल परिसर में रसोइया मेडिकल वेस्ट जलाए जाने का मामला सामने आया है इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं बताया जा रहा है कि यह वीडियो रिविचार देर रात का है जिसमें इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, जैविक कचरा एवं अन्य चिकित्सा अपशिष्ट को खुले स्थान पर जलाते हुए देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल वेस्ट को खुले में जलाना अत्यंत खतरनाक है। इससे जहरीला धुआं और हानिकारक रासायनिक तत्व वातावरण में फैलते हैं जो मरीजों, अस्पताल कर्मियों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं नियमों के अनुसार मेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था मौजूद है इसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया हो पूर्व में भी इसी प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. पुष्पाज सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी फिलहाल नहीं थी उन्होंने बताया कि मामले की जांच करता जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि मेडिकल वेस्ट जलाने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा यह किस परिस्थिति में हुआ।

26 जून को जिला चिकित्सालय सीधी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, ‘एक दान, जीवन के लिए’ अभियान से जुड़ेगा समाज

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मानवता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सीधी द्वारा 26 जून 2026 को जिला चिकित्सालय सीधी में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा ‘एक दान, जीवन के लिए’ अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है रक्त की आवश्यकता दुर्घटनाओं, जटिल शल्य चिकित्सा, प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों, थेलीसीमिया, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में निरंतर बनी रहती है। ऐसे में

स्वैच्छिक रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया है। जिला प्रशासन ने युवाओं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों सहित सभी जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लें प्रशासन का मानना है कि सामूहिक सहभागिता से जिले में रक्त की उपलब्धता मजबूत होगी और आपात परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के

अनुसार एक यूनिट रक्त को संसाधित कर उसके विभिन्न घटक जैसे लाल रक्त कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग-अलग मरीजों के उपचार में उपयोग किए जा सकते हैं इस प्रकार एक रक्तदाता का योगदान तीन अलग-अलग जीवन बचाने में सहायक हो सकता है रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, वैज्ञानिक और नियंत्रित मानी जाती है विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि नियमित रक्तदान से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कर सकता है। साथ ही यह समाज के प्रति सेवा और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है।

संकुल स्तर पर जागृति अभियान का आयोजन, शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट एवं बाल संरक्षण की दी गई जानकारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा के मार्गदर्शन में जागृति अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत 22 से 25 जून 2026 तक विभिन्न संकुलों एवं विद्यालयों में पॉक्सो एक्ट, बाल संरक्षण तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रवेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के



तहत जिला स्तर पर यूनिसेफ के रिसोर्स पर्सन द्वारा स्कूल शिक्षा, एक्ट, बाल संरक्षण तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रवेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के

स्तर पर शिक्षकों, कर्मचारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग, पीड़ित प्रतिकार योजना, परामर्श सेवाएं, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, बच्चों के व्यवहार में आने वाले

बदलावों की निगरानी तथा बच्चों के साथ विश्वासपूर्ण संवाद स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पॉक्सो ई-बॉक्स के उपयोग और महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बाल संरक्षण पर आधारित लघु फिल्म ‘कोमल’ सहित अन्य जागरूकता फिल्मों का प्रदर्शन कर बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा रही है।

रैम्प योजना के तहत सीधी में दो दिवसीय एमएसएमई वर्कशॉप का शुभारंभ

उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर दिया गया जोर



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। श्रृंख, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की रैम्प (रैजिंग एंड एक्सेलरेंटिंग एमएसएमई

परफॉर्मेंस) योजना के तहत जिला सीधी में दो दिवसीय कम्पोजिट एमएसएमई वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को उद्यम स्थापना, वित्तीय सहायता, व्यवसाय विस्तार और शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि सीधी जिला कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है यहां उपलब्ध स्थानीय उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर रोजगार और आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं उन्होंने कटहल, अचार, आलू चिप्स और अन्य खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। युवाओं, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों

को इन योजनाओं का लाभ उठाकर नवाचार आधारित उद्यम स्थापित करने चाहिए जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत के उद्योग एवं सहकारिता विभाग के सभापति प्रदीप शुक्ला ने सफल स्थानीय उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण का सही उपयोग कर युवा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं वहीं भ्रूम सोनी ने महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण पर अपने विचार रखते हुए महिलाओं की स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए

उद्यम स्थापना, ऋण सुविधा, विपणन, गुणवत्ता प्रमाणन और व्यवसाय विस्तार से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों और युवाओं को विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने और उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यशाला में एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी-2025, स्टार्टअप पॉलिसी-2025, भूमि आवंटन नीति, वित्तीय जागरूकता, एसएचजी फॉर्मलाइजेशन टू एमएसएमई तथा जेडईडी सर्टिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

जिले में डिप्टी कलेक्टरों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने प्रशासनिक कार्यों की सुचारु व्यवस्था एवं सुविधा को दृष्टि से जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किया है यह संशोधन उपखण्ड अधिकारी सिहावल राजेश कुमार शुक्ला के अपर कलेक्टर नर्मदापुरम स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक को उपखण्ड मंजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राजेश शुक्ला को उपखण्ड मंजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी सिहावल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही प्रभारी तहसीलदार मीनाक्षी जायसवाल को नजूल शाखा के साथ-साथ जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, जन शिकायत निवारण

एवं अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु राकेश शुक्ला एवं प्रिया पाठक को एक-दूसरे का लिंक ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं मीनाक्षी जायसवाल के लिए लिंक ऑफिसर के रूप में प्रिया पाठक को जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में कार्य प्रभावित न हो कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश भी दिए हैं।

लापरवाही की आग

लापरवाही की यह आग केवल लोगों की जिंदगियां ही नहीं लौल रही, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही है। बहुत दिन नहीं हुए, जब देश की राजधानी में अवैध रूप से बनाए और संचालित किए जा रहे होटल में आग लगने से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना गया था कि इस दिल दहलाने वाली घटना से सीख ली गई होगी और कम से कम देश के प्रमुख शहरों में सभी व्यावसायिक इमारतों में आग से बचाव के उपायों की जांच-परख की गई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी

लखनऊ में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने की घटना से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया। इस घटना में इस इमारत में चल रहे एक कोचिंग सेंटर के 15 से अधिक छात्रों की जान चली गई।

इस घटना पर राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आग लगने के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा ही तो होता है। जब भी किसी अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं तो कुछ दिन तक शासन-

प्रशासन की संवेदना, सजगता और सक्रियता दिखती है, लेकिन फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। ऐसी अधिकतर घटनाओं में आम तौर पर यही सामने आता है कि संबंधित इमारत में या तो आग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं थे या वे काम नहीं कर रहे थे।

आग लगने की कई घटनाओं में यह भी सामने आता है कि बड़ी-बड़ी इमारतों में हर

तरह की गतिविधियां अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही शुरू हो जाती हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि यदि आग लगने की घटनाओं की जांच रफ्तार से नहीं की जाती है तो ठोस कार्रवाई नहीं होती। कई घटनाओं में इस कारण भवन स्वामी की तो गिरफ्तारी हो जाती है कि उसने आग से बचाव के पर्याप्त प्रबंध नहीं कर रखे थे, पर सरकारी

एजेंसियों के वे अधिकारी-कर्मचारी कठिनाई से ही किसी कठोर कार्रवाई के दायरे में आते हैं, जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक इमारत में आग से बचाव के प्रभावी उपाय हों। लखनऊ की दर्दनाक घटना पर अभी यह सामने आना रोष है कि आग ने इतना विकराल रूप क्यों ले लिया और उसमें फंसे लोगों की सुरक्षित निकालने में वांछित सफलता क्यों नहीं मिली, लेकिन इसमें तो कोई संशय ही नहीं कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, पर वे तब बड़ी

जनहानि का कारण बनते हैं, जब सुरक्षा उपायों की अनदेखी एक तरह की अंधेरागदी में बदल जाती है। लापरवाही की यह आग केवल लोगों की जिंदगियां ही नहीं लौल रही, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही है। दिल्ली और लखनऊ जैसी घटनाएं यहीं बताती हैं कि अपने यहां प्रमुख शहरों में भी सार्वजनिक सुरक्षा एक तरह से भगवान भरोसे है। हम विकसित देश बनने के तो आकांक्षी हैं, लेकिन उन जैसे तौर-तरीके अपनाने के लिए तत्पर नहीं। हमें प्रायः ही इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

कार सुरक्षा मानकों में हम अभी भी काफी पीछे

मुकेश तिवारी

कारों की बिक्री के मामले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 15 फीसदी ज्यादा कारें बिकी वैसे भी स्टार्टअप बूम से छोटे शहरों में लम्बी कारों की मांग में इजाफा हुआ है। हालांकि दुनिया भर के बड़े शहरों में इनकी संख्या में गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह पार्किंग स्थलों के साथ ही सुरक्षा मानकों को लेकर भी ग्राहकों में चिंता रही है। आज के ग्राहकों को कार में ऐसी टेकनोलोजी चाहिए जो उसकी जिंदगी को सुविधा जनक के साथ सेफ्टी के लिहाज से हाइब्रिड तकनीक से देश हो कुछेक नामचीन कार निर्माणकर्ता कंपनियों की कारों को एनकैप परीक्षण में पास कर दिया गया हो, लेकिन तमाम सारी भारतीय कम्पनी की कारे एनकैप परीक्षण में सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। गौर तलब है कि पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारतीय कारों में सुरक्षा मानकों की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही है।

दरअसल में कारों में सुरक्षा मानकों की पडताल का काम ब्रिटेन की एक स्वतंत्र संस्था एनकैप द्वारा किया जाता है। यह ग्राहक केन्द्रित वाहनों की सुरक्षा पहल पर आधारित है,एनकैप चार तरह के टेस्ट करता है।जिसमें 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग दी जाती है।जितने अधिक स्टार,उतनी अच्छी रेटिंग और जितने काम स्टार उतनी खराब रेटिंग।लेकिन सुरक्षा मानकों के परीक्षण में सामने आया है कि अधिकांश कारों में सामने से टक्कर होने पर प्राणघातक चोट लगने की संभावना अधिक है। इतना ही नहीं 1 से लेकर 5 तक के मानक पर इन कारों को शून्य मिला है।

लूरोबल एनकैप के चेयरमैन मैक्स मोसले की माने तो भारत अब छोटी कारों की बिक्री और उत्पादन का बड़ा वैश्विक बाजार बन चुका है, इस वजह से सुरक्षा का यह स्तर काफी चिंताजनक है। सबसे गंभीर मसला यह है कि यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के सामान्य 5 स्टार मानकों से तकरीबन दो दशक पीछे है। उनका स्पेक्ट्रम पर मानना है कि कार के ढांचे में कमी होने और एयरबैग नहीं होने से भारतीय ग्राहकों की जिंदगी पर जोखिम बना हुआ है। छोटे नगरों कस्बों में वाहनों की बढ़ती मांग तथा उपयोगिता वाहनों की बड़ी लोकप्रियता के मध्य बीते वित्त वर्ष में हमारे मुल्क में यात्री वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड रही। हमारे मुल्क में कम कीमत वाली कारों को खासतौर से अहमियत दी जाती है। कम दामों वाली कार बनाने के लिए कार निर्माता कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर देती है। क्योंकि जिस कार में ज्यादा सुरक्षा फीचर होते हैं, उसकी लागत ज्यादा आती है। ऐसी कारे महंगी होने से कम बिकती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में सस्ती कारों का बड़ा बाजार है, माना जाता है कि इसी वजह से कई विदेशी कंपनियों ने हमारे मुल्क में सस्ती कारे उतारी है। हमारे मुल्क में कार खरीदते वक्त ग्राहक माल्जेज एक्सेज पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। जिस कार का एक्सेज ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा बिकती है। वैसे भी कार ज्यादा एक्सेज दे इस वजह से उसका वजन कम रहना पड़ता है। जाहिर है कि वजन कम रखने के लिए इन दिनों कारों में फाइबर मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि सच्चाई यह है कि कारों में सुरक्षा मानकों को लेकर हमारे मुल्क में स्पष्ट नीति नहीं है। इसी वजह से कार निर्माता सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं। जो मानक जरूरी है सिर्फ उन्हें वाहनों में लगाया जाता है। एयर बैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली उपयोग सिर्फ कीमती कारों में ही किया जा रहा है।

लूरोबल एनकैप ब्रिटेन की एक संस्था है जो मोटर वाहनों की सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में स्वतंत्र ग्राहक सूचना की उपलब्धता को बढ़ावा देती है। लूरोबल एनकैप की स्थापना सड़क सुरक्षा को लेकर यूएन डिकेड आफ एक्शन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए की गई है। इसके तहत 2020 तक सड़क दसे में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाना है। यूरो एनकैप की शुरुआत 1997 में हुई थी और अब लगभग पूरे यूरोप में इसके नतीजों को माना जाता है। वर्ष 1996 में स्वीडिश और इंटरनेशनल टैरेस्ट्रिंग संस्था ने मिलकर यह प्रोग्राम शुरू किया था। वर्ष 1997 में इसका पहला नतीजा निकाला गया था। शुरू में अनेक कार कंपनियों ने ननकैप द्वारा किए जाने वाले फ्रंटल आफसेट, साइड इम्पैक्ट, पेडेस्ट्रन, पोले टेस्ट की कड़ी निंदा की, लेकिन अब यह स्थिति है कि दुनिया भर में इस रेटिंग को आधिकारिक माना जाता है।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यही कारण है कि अब समय की मांग है कि सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्थानों के लिए आय-व्यय का नियमित सार्वजनिक लेखा-जोखा, स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल भुगतान व्यवस्था वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट का प्रकाशन तथा प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों का कठोर अनुपालन अनिवार्य बनाया जाए। आस्था और प्रशासन का संतुलन तभी संभव है जब श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक रुपये के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी दिखाई दे। वित्तीय शुचितता केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि धर्मस्थलों की नैतिक प्रतिष्ठा और समाज के विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी कसौटी भी है।

साथियों अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि करोड़ों भारतीयों और विश्वभर के रामभक्तों की सदियों पुरानी आस्था,संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर में चढ़ावे,दान राशि, सोना-चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन,वित्तीय अनियमितताओं,शिलाओं के गायब होने, कर्मचारियों की सलिसला के आरोपों तथा जांच एजेंसियों की सक्रियता से जुड़ी खबरों ने पूरे देश में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। यह मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है। सोमवार 22 जून 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध घटनाक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, उच्च न्यायालय में जन्हित याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट ने दान प्रबंध व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा।

साथियों, सबसे पहले यह समझना



आवश्यक है कि विवाद की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात कही गई। आरोपों में नकदी, सोना- चांदी और अन्य चढ़ावे के लेखा- जोखा पर प्रश्न उत्पन्न हुए। इसके बाद मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।एसआईटी में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय अधिकारियों को शामिल किया गया तथा उसे सीमित समय में प्रारंभिक एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व चिंता पैदा कर दी है। यह मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है। सोमवार 22 जून 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध घटनाक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, उच्च न्यायालय में जन्हित याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट ने दान प्रबंध व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा।

साथियों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विवाद की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात कही गई। आरोपों में नकदी, सोना- चांदी और अन्य चढ़ावे के लेखा- जोखा पर प्रश्न उत्पन्न हुए। इसके बाद मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।एसआईटी में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय अधिकारियों को शामिल किया गया तथा उसे सीमित समय में प्रारंभिक एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया।जांच के दौरान अनेक दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने धन के प्रवाह (मनी ट्रेल), दान पेटियों की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका, रिपोर्टों में अंतर और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। जांचकर्ताओं ने उन लोगों से पूछाछा कि जिनके नाम प्रारंभिक आरोपों में सामने आए थे। एसआईटी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो वह किस स्तर पर हुई, धन कहाँ गया, किन खातों में गया और उसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा।

साथियों, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच का समर्थन किया। ट्रस्ट ने पहले भी कहा था कि नियमित ऑडिट और वित्तीय समीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, फिर भी यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट का कहना

रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।कथित दान अनियमितताओं के बाद ट्रस्ट द्वारा दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दान पेटियों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, लेखांकन प्रक्रिया, बहुस्तरीय सत्यापन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा वित्तीय ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश न्यूनतम रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे।

साथियों, इस प्रकरण में न्यायिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा निबंधक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जन्हित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।यह मामला 18 जून 2026 को आकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। समायाभाव के कारण उस दिन विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को 22 जून 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।122 जून की सुनवाई का प्रमुख केंद्र यह था कि क्या मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई जांच अथवा कैग ऑडिट की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अधिकतम पारदर्शिता आवश्यक है। दूसरी ओर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों का रुख यह रहा कि एसआईटी की जांच पहले से जारी है और उसके निकर्ष सामने आने दिए जाने चाहिए। अंतिम न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।

साथियों, राजनीतिक स्तरपर भी इस प्रकरण ने तीखी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की है। विपक्षी दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निकर्ष निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सत्य सामने आएगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसे किसी राजनीतिक चरम से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या गबन सिद्ध होता है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो संबंधित संस्थाओं की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी उतनी ही आवश्यक होगी। कानून का शासन यही मांग करता है कि निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो, न कि भावनाओं या राजनीतिक धुवीकरण के आधार पर।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। विश्व के अनेक देशों में धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए कड़े ऑडिट,डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी तंत्र लागू किए जाते हैं। अयोध्या जैसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के लिए भी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था केवल प्रशासनिक निराधार साक्ष्यों नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि इस विवाद से सीख लेकर अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था विकसित की जाती है तो यह भविष्य में धार्मिक संस्थानों के सुशासन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करके यह तर्क स्वीकार करें तो हम पाएंगे कि, 22 जून 2026 तक की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि मामला अभी जांच और न्यायिक परीक्षण के दौर में है।एसआईटी ने अपनी जांच को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, न्यायालय में याचिका विचारार्थीन न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।

साथियों, राजनीतिक स्तरपर भी इस प्रकरण ने तीखी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की है। विपक्षी दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निकर्ष निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सत्य सामने आएगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसे किसी राजनीतिक चरम से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या गबन सिद्ध होता है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो संबंधित संस्थाओं की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी उतनी ही आवश्यक होगी। कानून का शासन यही मांग करता है कि निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो, न कि भावनाओं या राजनीतिक धुवीकरण के आधार पर।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। विश्व के अनेक देशों में धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए कड़े ऑडिट,डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी तंत्र लागू किए जाते हैं। अयोध्या जैसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के लिए भी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था केवल प्रशासनिक निराधार साक्ष्यों नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि इस विवाद से सीख लेकर अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था विकसित की जाती है तो यह भविष्य में धार्मिक संस्थानों के सुशासन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करके यह तर्क स्वीकार करें तो हम पाएंगे कि, 22 जून 2026 तक की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि मामला अभी जांच और न्यायिक परीक्षण के दौर में है।एसआईटी ने अपनी जांच को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, न्यायालय में याचिका विचारार्थीन न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।

मोबाइल, तनाव और भागदौड़ के दौर में क्यों जरूरी है 7-8 घंटे की गहरी नींद ?

आधुनिक डिजिटल युग में मनुष्य विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, परंतु विडंबना यह है कि विकास और व्यस्तता की इस दौड़ में वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण जैविक आवश्यकता—नींद—से लगातार समझौता करता जा रहा है। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, देर रात तक काम करने की संस्कृति, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवनशैली ने लाखों लोगों की नींद छीन ली है। विश्वभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद केवल आराम का माध्यम नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का मूल आधार है। यदि भोजन शरीर के लिए ईंधन है, तो नींद शरीर और मस्तिष्क की गहमखत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है।

किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी नींद को अत्यंत महत्व दिया गया है। लोकगीतों, कथावतों और फिल्मों में नींद को सुख, शांति और संतोष का प्रतीक माना गया है। रातों की नींद उड़ जाना आज भी चिंता और तनाव का सबसे प्रचलित प्रतीकात्मक वाक्य है। वर्तमान समय में यह केवल मुहावरा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अनिद्रा और अपर्याप्त नींद अब जीवनशैली से जुड़ी सबसे तेजी से बढ़ती समस्याओं में शामिल हैं।

साथियों, यदि हम पर्याप्त नींद न आने के कारणों पर विचार करें, तो इसके पीछे अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग, लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, मानसिक तनाव, आर्थिक चिंताएं, कार्यस्थल का दबाव, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन, धूम्रपान, शराब, शारीरिक गतिविधियों की कमी तथा अस्तित्वित जीवनशैली प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायरॉइड विकार, अवसाद और चिंता संबंधी रोग भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

आज चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करता है कि अनिद्रा (इंसोपनिया) केवल एक छोटी समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य विकार है। इसमें व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है, बार-बार नींद टूटती है, या सुबह उठने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। परिणामस्वरूप व्यक्ति दिनभर थका, चिड़चिड़ापन, तनाव और कार्यक्षमता में कमी का अनुभव करता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।

साथियों, अल्पकालीन प्रभावों की बात करें तो नींद की कमी से एकाग्रता प्रभावित होती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है, स्मरणशक्ति घटती है और कार्य में रुचि कम होने लगती है। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है तथा सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों में इसका असर अध्ययन और परीक्षा परिणामों पर पड़ता है, जबकि नौकरिपेशा लोगों में कार्यक्षमता और उत्पादकता घट जाती है। यदि यही स्थिति लंबे समय तक जारी रहे, तो इसके परिणाम और अधिक गंभीर हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि लगातार अपर्याप्त नींद लेने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, स्ट्रोक, अवसाद और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद न लेने से



शरीर में सूजन बढ़ाने वाले जैविक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जो अनेक दीर्घकालिक रोगों का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लगातार खराब नींद व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है।

साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में एक नई समस्या स्लीप डेफिसिट या नींद का ऋण बनकर सामने आई है। अनेक लोग सप्ताह भर कम नींद लेते हैं और सप्ताहों में अधिक सोकर उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपाय पूर्णतः प्रभावी नहीं है, क्योंकि शरीर को नियमित और गुणवत्तापूर्ण नींद की आवश्यकता होती है। नींद का लगातार जमा होता ऋण मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कतजोर कर सकता है।

साथियों, नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि मस्तिष्क को भी व्यवस्थित करती है। जब हम सोते हैं, तब मस्तिष्क पूरे दिन प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाता है और अनावश्यक सूचनाओं को हटाता है। यही कारण है कि पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों की स्मरणशक्ति, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बेहतर होती है। आधुनिक शोध यह भी दर्शाते हैं कि अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है तथा चिंता और अवसाद के जोखिम को कम करती है। साथियों, विशेषज्ञों के अनुसार वयस्कों को प्रतिदिन औसतन 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना आवश्यक है। किशोरों और बच्चों के लिए यह आवश्यकता इससे अधिक हो सकती है। केवल घंटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। बार-बार टूटने वाली या अशांत नींद भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप पेय पदार्थों से बचें। नियमित व्यायाम करें, परंतु सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम न करें। शयनकक्ष को शांत, स्वच्छ और अंधकारयुक्त

रखें। ध्यान, योग और मधुर संगीत भी मन को शांत कर बेहतर नींद में सहायक हो सकते हैं। साथियों, पर्याप्त नींद लेने के लाभ अनेक हैं। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, स्मरणशक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक संतुलन बना रहता है तथा व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान और प्रसन्नचित्त महसूस करता है। अच्छी नींद हमारे चेहरे पर प्राकृतिक चमक और मुस्कान भी बनाए रखती है। अतः चिंता और अवसाद के जोखिम को कम करने और विश्र्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि नींद उड़ी तो सेहत बिगड़ी केवल एक कहावत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने वाली प्राकृतिक औषधि है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी हमें अपनी नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए। वास्तव में चैन की नींद ही स्वस्थ, सुखी, सफल और संतुलित जीवन की आधारशिला है।आओ चैन की नींद सोएं, क्योंकि पर्याप्त नींद ही स्वस्थ जीवन का सबसे सस्ता, सुरक्षित और प्रभावी टॉनिक है। (- संकलनकर्ता: कर विशेषज्ञ, संतभकार, साहित्यकार, अंतरराष्ट्रीय लेखक, चिंतक एवं अधिवक्ताएडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोदिया (महाराष्ट्र)।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में जीआरपी का बड़ा कदम, 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

साइबर अपराध, फॉरेंसिक विज्ञान, मानवाधिकार एवं जनसंपर्क पर दिया गया प्रशिक्षण, 30 पुलिसकर्मी हुए प्रशिक्षित

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। बदलते अपराध स्वरूपों और आधुनिक तकनीकी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशेष 'स्मार्ट पुलिसिंग प्रशिक्षण' शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। पुलिस बल को तकनीकी रूप से दक्ष, संवेदनशील एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से आयोजित



यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल स्थित पी.टी.आर.आई. प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। समापन समारोह में विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार संजीव कुमार शर्मा तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल भोपाल राजाबाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। यह विशेष प्रशिक्षण शिविर 8 जून से 22 जून 2026 तक आयोजित किया गया था प्रशिक्षण में जीआरपी भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर इकाइयों के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कुल 30 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आधुनिक अपराधों की जांच, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को साइबर अपराधों की पहचान, जांच और रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग, मानवाधिकार संरक्षण, तनाव प्रबंधन तथा प्रभावी जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही डिजिटल तकनीकों के माध्यम



से अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय भी सिखाए गए अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल का प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और त्वरित सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल ने प्रशिक्षण

जीआरपी जबलपुर ने त्वरित कार्रवाई कर ट्रेन में चोरी गए आभूषण एवं सामान को दो घंटे में किया बरामद



मीडिया ऑडिटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस की संवेदनशील, तकनीक आधारित एवं त्वरित कार्रवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया है जीआरपी थाना जबलपुर ने अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चोरी गए 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण एवं अन्य सामान को घटना के मात्र दो घंटे के भीतर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर श्री सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि 22 जून को नर्मदापुरम जिले के इटारसी निवासी नीलेश मालपानी ने जीआरपी थाना जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ट्रेन क्रमांक 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उनकी पत्नी के पर्स से सोने के आभूषण, एप्पल एयरपॉड, नगदी एवं अन्य दस्तावेज सहित लगभग 10 लाख 47 हजार रूप के सामग्री चोरी हो गई हैं रिपोर्ट पर थाना जीआरपी जबलपुर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल राजा बाबू सिंह के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों तथा मोबाइल लोकेशन का गहन विश्लेषण किया गया जांच के दौरान चोरी गए एप्पल एयरपॉड की लोकेशन ट्रेस होने पर प्राप्त तकनीकी जानकारी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर शिवनगर, गोहलपुर क्षेत्र में दबिश दी गई कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया सोने का हार, अंगूठियां, कान के टॉप्स, ब्रेसलेट, एप्पल एयरपॉड, नगदी, आधार कार्ड सहित अन्य सामग्री लगभग 10 लाख 47 हजार रूप के जब् की। मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति तथा आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु प्रबलित है।

मंडी टैक्स वृद्धि के विरोध में प्रदेशभर की कृषि मंडियां बंद, खरीदी-बिक्री रही ठप

1.20' से बढ़ाकर 1.70' किए गए मंडी शुल्क का व्यापारियों ने किया विरोध, किसानों की बढ़ी चिंता



मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स (मार्केट फीस) को 1.20 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.70 प्रतिशत किए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रदेशभर की कृषि उपज मंडियों में एक दिवसीय हड़ताल आयोजित की गई। 'सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ मध्य प्रदेश' के आह्वान पर प्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में 'खरीदी-बिक्री,

नीलामी प्रक्रिया बंद रहने के कारण किसानों की उपज की बिक्री प्रभावित हुई। पिपरिया ग्रेन मच्चेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान दास अग्रवाल ने सरकार के निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि बाजार पहले से ही मंदी और बढ़ती महंगाई की चुनौतियों से जूझ रहा है ऐसे समय में मंडी शुल्क में वृद्धि व्यापारियों और किसानों दोनों के हितों के खिलाफ है उन्होंने कहा कि यह हड़ताल सरकार का ध्यान आकर्षित करने और फैसले पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से की गई है व्यापारी संगठनों का कहना है कि 16 जून से लागू की गई नई मंडी शुल्क दरों का सीधा असर कृषि व्यापार पर पड़ेगा उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स पहले से ही

महागुट्ट और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है शुल्क वृद्धि से राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी और कृषि व्यापार महंगा हो जाएगा। व्यापारियों ने आशंका जताई कि यदि करों का बोझ लगातार बढ़ता रहे तो बड़ी प्रोसेसिंग कंपनियां और खरीदार दूसरे राज्यों का खूब कर सकते हैं इससे प्रदेश के कृषि व्यापार और किसानों दोनों को नुकसान होगा। वहीं किसानों ने भी मंडी शुल्क बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है उनका मानना है कि यदि व्यापारियों की लागत बढ़ेगी तो इसका प्रभाव फसलों के खरीद मूल्य पर पड़ेगा ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है।

नर्मदापुरम में सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 आरोपी गिरफ्तार

शहर के विभिन्न इलाकों में दी गई दबिश, 2.13 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल और सट्टा सामग्री जब्त

मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)। अवैध सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसते हुए नर्मदापुरम पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकदी, मोबाइल तथा सट्टा पर्चियां बरामद की हैं जब्त सामग्री का कुल मूल्य लगभग 2 लाख 13 हजार रुपए बताया गया है सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। सोमवार शाम एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि

प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 28 हजार रुपए नकद, तीन मोबाइल फोन तथा लगभग दो लाख रुपए की सट्टा पर्चियां जब् की गई पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री और नकदी का कुल मूल्य करीब 2 लाख 13 हजार रुपए है।

सरगुजा संभाग स्तरीय रोजगार मेला 27 जून को, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। सरगुजा संभाग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर सरगुजा संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 27 जून 2026 को किया जा रहा है कोशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएंगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अंबिकापुर द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में संपन्न होगा रोजगार विभाग के अनुसार मेले में लगभग 2000 से अधिक

रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी इससे सरगुजा संभाग के हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा रोजगार मेले की विशेष बात यह है कि इसमें विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक तथा अन्य तकनीकी और व्यावसायिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद उपलब्ध रहेंगे कंपनियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पद और योग्यता के अनुसार 6 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन प्रदान किया जाएगा जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्यप्रदेश जीआरपी का सामूहिक योगाभ्यास, 1129 लोगों ने लिया भाग

'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत प्रदेशभर के रेलवे परिसरों में आयोजित हुए कार्यक्रम, रानी कमलापति स्टेशन पर पहली बार हुआ वृद्ध आयोजन



प्लेटफ़ॉर्म क्रमांक-1 पर पहली बार वृद्ध स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल राजाबाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित इस विशेष आयोजन ने यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों तथा आम नागरिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। मुख्य कार्यक्रम के

अंतर्गत आने वाले सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में शासकीय रेलवे पुलिस के 402 अधिकारी-कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल के 150 जवान, 98 वेंडर, 85 कुली, 10 पॉइंट्समैन, 162 ऑटो चालक, 50 रिक्शा चालक, 50 रेलवे कर्मचारी तथा 122 अन्य रेल सेवा से जुड़े लोगों ने भागीदारी की इस प्रकार प्रदेशभर में कुल 1129 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन दृष्टि का भी आधार है

मनेन्द्रगढ़ विदेशी मदिरा दुकान हेतु भवन किराए पर लेने के लिए द्वितीय निविदा जारी

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। विदेशी मदिरा दुकान मनेन्द्रगढ़ के संचालन हेतु भवन किराए पर लेने के लिए जिला प्रशासन द्वारा द्वितीय निविदा जारी की गई है। कलेक्टर (आबकारी) कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के निर्देशानुसार इच्छुक भवन स्वामियों से निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग लिमिटेड (सीएसएमसीएल) द्वारा नगर पालिका क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में विदेशी मदिरा दुकान के लिए उपयुक्त भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक निविदाकारों को अपनी तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में 07 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 4 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में समिति द्वारा खोला जाएगा निविदा से संबंधित विस्तृत नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय अथवा सीएसएमसीएल जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों को 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा यह ड्राफ्ट प्रबंधक, सीएसएमसीएल जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नाम से देय होगा पूर्व में विक्रय किए गए निविदा प्रपत्रों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया जा सकेगा।

खोद सेक्टर के जेई कैलाश अहिरवार निलंबित

ऊर्जा मंत्री के सामने ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ लगाए नारे

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिले के खोड़ गांव में आयोजित जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों की शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने खोड़ सेक्टर के कनिष्ठ यंत्री (जेई) कैलाश अहिरवार को निलंबित कर दिया है ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की थी। यह कार्रवाई विभागीय लापरवाही और शिकायतों के आरोपों के बाद की गई है यह घटना रिवार को शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के खोड़ स्थित धाय महादेव मंदिर परिसर में हुई। यहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्रामीणों

28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान, जिले के 51 हजार से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

कलेक्टर संतान देवी जांगड़े ने दिए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश, 'एक भी बच्चा न छूटे' पर रहेगा विशेष फोकस

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं आगामी 28 से 30 जून 2026 तक जिले में त्रि-दिवसीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,01,013



बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अभियान की तैयारियों की समीक्षा को लिए अधिकारियों ने सुसंतान देवी जांगड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अभियान की माइक्रो प्लानिंग, जनजागरूकता

गतिविधियों, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों तथा विभिन्न विभागों के समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई अधिकारियों ने बताया कि अभियान के पहले दिन 28 जून को जिले के सभी निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी इसके बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमों घर-घर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दवा पिलाएंगी कलेक्टर संतान देवी जांगड़े ने कहा कि पोलियो उन्मूलन राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना अनिवार्य है अधिकारियों को विशेष रूप से ईट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, प्रवासी श्रमिकों की बस्तियों, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तथा शहरी दुर्गम बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापक माइक्रो प्लानिंग पर जोर देते हुए प्रत्येक बूथ, दुर्गम क्षेत्रों तथा विशेष स्थानों के लिए अलग रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानियों एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से

जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के सहयोग से संवेदनशील वार्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी यात्रा कर रहे बच्चों को भी पोलियो की खुराक उपलब्ध कराने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर ट्रांजिट टीमें तैनात रहेंगी कलेक्टर ने अभियान की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न

तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर,सागर के गढ़ाकोटा में सड़क हादसा,सिर में गंभीर चोट लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर जिले स्थित गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार और बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।

राहगीरों ने घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गढ़ाकोटा के आजाद वार्ड निवासी 60 वर्षीय केशव भौरहरि के रूप में हुई है। केशव देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर सागर रोड से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सागर-गढ़ाकोटा रोड पर पावर हाउस के सामने विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि उखलकर सड़क पर गिरी बाइक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे बाइक उछल कर नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक र सीधे सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में बुजुर्ग केशव के सिर में गंभीर चोट आई थी। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बिना समय गंवाए उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ाकोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु करने के लिए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया, ‘कार और बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करा दिया है। मामले को दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का होगा शुभारंभ,जिले के 1,82,084 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। जिले में 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिले के 1,82,084 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम दिवस में सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि आगामी दो दिनों तक विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गए हैं कि अभियान संबंधी सभी तैयारियां समयपूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं और पोलियो की खुराक से एक भी बच्चा न छूटे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल, सभी सिविल अस्पतालों, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों पर बू?थ स्थापित कर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा ट्रांजिट टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे 05 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं।

खरगोन में आधे घंटे तक तेज बारिश,प्री-मानसून गतिविधि शुरू, आगे भी रुक-रुककर बारिश होने के आसार



मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन में मंगलवार दोपहर ने 1 बजे गरज-चमक के साथ करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। यह प्री-मानसून गतिविधि की पहली बारिश है, जिससे तीखी उमस से राहत मिली और तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। 40 डिग्री से 38.5 डिग्री के आसपास आ गया। सुबह से बादल छाए हुए थे, और दोपहर में अचानक मौसम बदलने से पहले तेज उमस महसूस की गई। बूंदबांंदी से शुरू हुई बारिश जल्द ही तेज हो गई, जिससे सनावद रोड पर पानी बह निकला। जून के तीन सप्ताह बाद हुई इस बारिश ने खरीफ की बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, जिले में 1 जून से अब तक केवल 8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से 70 मिमी कम है। किसान राजेश पटेल ने बताया कि इस बारिश से गमी के कपास, मक्का और मिर्च की फसलों को फायदा मिला है और खेतों में नमी बढ़ी है। पिछले साल 16 जून को मानसून की तेज बारिश हुई थी। कृषि विभाग के सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह प्री-मानसून की बारिश है और अभी पर्याप्त नमी नहीं है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलों की बुवाई के लिए कम से कम 4 इंच गहराई तक नमी आवश्यक है, जो अभी मौजूद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बारिश हुई है। विभाग ने अगले दो दिनों में जिले में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है।

प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 16 विभाग कर रहे कार्य

विदिशा मीडिया ऑडीटर, (निप्र)। प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 16 विभाग समन्वित रूप से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, जन अभियान परिषद तथा जनसंपर्क विभाग शामिल हैं। अभियान के माध्यम से तालाबों, कुओं, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई, गहरीकरण, संरक्षण और जनजागरूकता संबंधी गतिविधियां व पौधरोपण संचालित किया जा रहा है। जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभागों द्वारा विशेष पहल और नवाचार भी किए जा रहे हैं। यह अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा। विभागवार जानकारी अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1467 खेत तालाब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसी प्रकार 1613 डगबेल रिचार्ज, 812 मनरागा अंतर्गत प्रगतिरत जल संरक्षण के कार्यों को भी पूर्ण कर लिया गया है तथा 28 बावड़ियों की साफ सफाई मरम्मत व नवीनीकरण के साथ-साथ नदियों के घाटों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।

सीहोर में चावल से भरा ट्रक पलटा, लगी भीषण आग

● **लाखों का माल खाक, चालक**

और क्लीनर ने कूदकर

बचाई जान

मीडिया ऑडीटर, सीहोर(निप्र)।

सीहोर में इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जताखेड़ा के पास चावल से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई, जिससे उसमें भरा चावल और वाहन का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

तेज रफ्तार के चलते बिगड़ा संतुलन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर तेज गति से दौड़ रहा था। जताखेड़ा के समीप पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसके केबिन और पीछे के



हिस्से से आग की तेज लपटें उठने लगीं।

चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान: हादसे के बाद स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। ट्रक में आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक और क्लीनर समय रहते वाहन से बाहर निकल आए। दोनों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे

में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगा ट्रक: ट्रक में आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में बड़ी मात्रा में चावल भरा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। हाईवे से गुजर रहे लोग भी आग

की ऊंची लपटों को देखकर रुक गए और घटना की सूचना पुलिस तथा दमकल विभाग को दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए तत्काल अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वाहन का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हाईवे पर लगा लंबा जाम: हादसे और आगजनी के कारण इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सड़क पर ट्रक के पलटने और आग लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वाहनों की आवाजाही शुरू कराई।

क्रेन की मदद से हटाया गया ट्रक: आग बुझने के बाद पुलिस ने क्रेन

बुलाकर क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाया। ट्रक हटाए जाने के बाद हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी देर तक मौके पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखी।

लाखों रुपए का नुकसान: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक में लदा भारी मात्रा में चावल पूरी तरह जल गया है। आगजनी में वाहन को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है। नुकसान का सही आकलन जांच के बाद ही सामने आएगा।

हादसे के कारणों की जांच शुरू: पुलिस ने मामले को दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

मुंबई में मीडिया कर्मी युवक ने की आत्महत्या, छतरपुर के शिवकुमार अनुरागी की मौत,कारणों का खुलासा नहीं

मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के डिपो कॉलोनी निवासी एक युवक ने सोमवार रात मुंबई में आत्महत्या कर ली। युवक एक मीडिया कंपनी में कार्यरत था। घटना की जानकारी रात करीब 10 बजे उसके दोस्तों ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया। युवक की पहचान शिवकुमार अनुरागी (डिपो कॉलोनी, आरटीओ कार्यालय के सामने, छतरपुर निवासी) के रूप में हुई। उनके दोस्तों ने रात लगभग 10 बजे परिजनों को फोन पर घटना की सूचना दी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।



पिता छतरपुर में पटवारी, मुंबई रवाना: शिवकुमार के पिता जमुना अनुरागी राजस्व विभाग में पटवारी हैं और वर्तमान में आलीपुरा क्षेत्र में पदस्थ हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। डिपो कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में भी लोग स्तब्ध हैं। सुसाइड की वजह अबतक स्पष्ट नहीं मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवकुमार अनुरागी ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों के मुंबई पहुंचने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है। घटना और आत्महत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। परिजनों ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।

खंडवा में लगातार दूसरे दिन प्री-मानसून बारिश

आंधी से रेलवे का ओएचई पोल क्षतिग्रस्त,पठानकोट एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)।

खंडवा जिले में लगातार दूसरे दिन प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सोमवार शाम आई तेज आंधी के कारण रेलवे लाइन का ओएचई पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पठानकोट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें ढाई घंटे तक लेट हो गईं। वहीं, मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को खेत में पर्याप्त नमी होने तक बोवनी से बचने की एडवाइजरी जारी की है। खंडवा में मंगलवार सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर 12 बजे से रुक-रुककर बारिश शुरू हो गई। आकाशीय बिजली की गरज के साथ हुई इस प्री-मानसून बारिश ने पूरे जिले को कवर नहीं किया। शहरी क्षेत्र में कहीं पानी गिरा तो कहीं धूप खिली रही। इससे पहले सोमवार शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में पेड़ गिरने के मामले भी सामने आए थे।

ओएचई पोल टूटने से ट्रेन यातायात हुआ प्रभावित: सोमवार रात को हुई तेज आंधी



और बारिश का असर रेल यातायात लाइन पर एक ओएचई (OHE) पोल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया।

इसके चलते पठानकोट एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को रोकना पड़ा और ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से आधे से लेकर ढाई घंटे तक की देरी से चलीं।

जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आगम मानसून: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, महाराष्ट्र में मानसून की रुकावट के कारण मध्य प्रदेश में वर्तमान में यह प्री-मानसून एक्टिविटी बन रही है। खंडवा जिले में मानसून की विधिवत दस्तक जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में होने का अनुमान जताया गया है।

किसानों के लिए एडवाइजरी- जमीन में 9 इंच नमी होने पर ही करें बोवनी

कृषि और मौसम विशेषज्ञों ने किसानों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। किसानों को सख्त सलाह दी गई है कि वे प्री-मानसून की इस हल्की बारिश के आधार पर जल्दबाजी में बोवनी न करें। जब तक जमीन के भीतर 9 इंच तक की पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक खेतों में बीज बिल्कुल न डालें।

पिछले साल के मुकाबले अब तक साढ़े तीन इंच कम बारिश

भू-अभिलेख विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को जिले में कुल 14.4 एमएम (करीब आधा इंच) बारिश दर्ज की गई। इसमें सबसे ज्यादा 32 एमएम बारिश पंधाना क्षेत्र में हुई है। पिछले साल आज की तारीख तक जिले में 98.8 एमएम (4 इंच) बारिश दर्ज की गई थी, जिसकी तुलना में इस साल अब तक साढ़े तीन इंच कम बारिश हुई है।

मन्दसौर में दो हिडन चैंबर में छिपा मिला डोडाचूरा

सीबीएन ने ट्रक के हिडन चैंबर से निकाली 616 किलो नशे की खेप



मीडिया ऑडीटर,मंदसौर (निप्र)।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) मंदसौर ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 616 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा (पॉपी स्ट्रॉ) जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तस्करी नेटवर्क से

जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सीबीएन ने सोमवार को इस कार्रवाई का खुलासा किया। ब्यूरो को मिली विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर सीबीएन मंदसौर द्वितीय खंड और पी एंड आई सेल की संयुक्त टीम ने मल्हारागढ़ और पिपलियामंडी के बीच एक फ्लैटबेड ट्रक को रोक। मौके पर

विस्तृत तलाशी संभव न होने के कारण ट्रक और चालक को सीबीएन कार्यालय, मंदसौर लाया गया।

ट्रक में बने थे दो गुप्त कक्ष: कार्यालय परिसर में ट्रक की गहन जांच के दौरान फ्लैटबेड के निचले हिस्से और चालक के केबिन के पीछे विशेष रूप से बनाए गए दो गुप्त कक्ष (हिडन चैंबर) मिले। इन कक्षों में छिपाकर रखे गए 67 प्लास्टिक कट्टों से कुल 616 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया।

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार, चालक के केबिन के पीछे बने गुप्त कक्ष से कट्टों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। टीम ने लोहे काटने की मशीन मंगवाकर गुप्त कक्ष को काटा और उसमें छिपाई गई पूरी खेप को बाहर निकालकर जब्त किया।

पन्ना में महिला ने पिया हेयर डाई, मौत

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, शादी में मोबाइल चोरी पर रिश्तेदारों से हुआ था विवाद

मीडिया ऑडीटर, पन्ना (निप्र)।

पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र में एक महिला की हेयर डाई पीने से मौत हो गई। गंभीर हालत में महिला को पन्ना जिला अस्पताल से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका दो मासूम बच्चों की मां थीं। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छतेनी निवासी पुनिया अहिरवार (26) पत्नी सुनील अहिरवार के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 5 वर्ष पहले हुआ था। पति सुनील अहिरवार मजदूरी का काम करते हैं।

● **फोन चोरी होने के विवाद के बाद हेयर डाई पी**

जानकारी के अनुसार, सोमवार को महिला का पूरा परिवार किशनपुर गांव में मामा के लड़के की शादी में शामिल होने गया था। शादी की खुशियों के बीच वहां



महिला का मोबाइल चोरी हो गया। घटना को लेकर परिवार और महिला के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद महिला ने सोमवार दोपहर को ही शादी से अकेले घर छतेनी लौट आई, जबकि बाकी परिजन बाद में पहुंचे। घर लौटने के बाद सोमवार को ही महिला ने कमरे में रखी बालों में लगाने वाली हेयर डाई पी ली।

● **महिला को रीवा रेफर**

किया गया

कुछ देर बाद जब उसकी जेठानी ने

महिला को लगातार उल्टियां करते देखा, तो उन्हें अनहोनी का शक हुआ। जेठानी ने तुरंत इसकी सूचना पुनिया के पति सुनील अहिरवार को दी। परिजन आनन-फानन में महिला को लेकर अजयगढ़ शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां से पन्ना और फिर रीवा रेफर किया गया था।

● **रीवा पहुंचने से पहले ही**

रास्ते में तोड़ा दम

अजयगढ़ अस्पताल में महिला की हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देकर उसे तुरंत जिला अस्पताल पन्ना के लिए रेफर कर दिया। पन्ना जिला अस्पताल में भी महिला स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया। लेकिन रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया।

● **पहले भी की थी आत्महत्या**

करने की कोशिश

इस असमय मौत से महिला के दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। उसका बड़ा बेटा शिवम सिर्फ 3 साल का है और छोटा बेटा बाबू सिर्फ 7 महीने का है। पति सुनील ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने करीब 2 साल पहले भी अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था।

हालांकि, उस समय सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इस बार हेयर डाई का जहर जानलेवा साबित हुआ। घटना के बाद आज मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

● **डॉक्टर बोले-हेयर डायर**

● **अंदरूनी अंग जला देता**

मामले को लेकर जिला अस्पताल पन्ना के ड्यूटी डॉक्टर और एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी ने बताया महिला ने बालों में लगाने वाली हेयर डाई का सेवन किया था। इसके जहर के असर से महिला के पूरे गले में अत्यधिक सूजन आ गई थी, जिससे उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन हेयर डाई या रासायनिक मेहंदी में एक विशेष प्रकार का बेहद खतरनाक केमिकल और एसिड पाया जाता है। इसका सेवन करने से इंसान के शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह जल जाते हैं। यदि कोई इसे अधिक मात्रा में पी लेता है तो शरीर के भीतर खतरनाक केमिकल रिएक्शन होता है। संबंधित व्यक्ति की तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है।

पीके बनर्जी: महज 15 साल की उम्र में नौकरी

नई दिल्ली ,एजेसी। प्रदीप कुमार बनर्जी का नाम देश के महान फुटबॉल खिलाड़ियों और कोच में शुमार है, जिन्होंने एशियन गेम्स 1962 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल के प्रेरणास्रोत माने जाते हैं। 23 जून 1936 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे पीके बनर्जी का परिवार विभाजन से पहले जमशेदपुर में स्थानांतरित हो गया था। पिता प्रोवत ब न ज पी सरकारी कर्मचारी थे। वेतन इतना नहीं था कि परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सके। हालांकि, पीके बनर्जी ने अपनी पढ़ाई के साथ खेल को जारी रखा। इस बीच परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। कुछ समय बाद सिर से पिता का साया उठ गया। पीके भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। ऐसे में



भूखे पेट मैच खेले, ओलंपिक में दागा ऐतिहासिक गोल

पीके बनर्जी ने साल 1955 में भारत की तरफ से डेब्यू किया। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में उनके शानदार खेल के दम पर भारत सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा था। इसके बाद 1960 रोम ओलंपिक में पीके बनर्जी ने भारतीय टीम की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने फांस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गोल दागते हुए मुकाबला 1-1 से ड्रॉ करवाया। करीब 2 साल बाद पीके बनर्जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल के दम पर भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। चुनी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम के साथ उनकी शानदार स्ट्राइक पार्टनरशिप को त्रिमूर्ति का नाम दिया गया।

39वें जन्मदिन से पहले मेसी ने रचा इतिहास

बोले- उम्र नहीं, फिटनेस और प्रदर्शन पर है पूरा ध्यान

डलास ,एजेसी। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अपने 39वें जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी मेसी ने कहा कि वह अपनी उम्र के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनका पूरा ध्यान फिट रहने और बेहतर प्रदर्शन करने पर है। डलास में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। इस मैच में मेसी ने पहले हाफ में गोल कर फीफा विश्व कप में जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इंजरी टाइम में एक और गोल करके विश्व कप में अपने कुल गोलों की संख्या 118 तक पहुंचा दी। मैच के बाद मेसी ने कहा, मैं अपनी उम्र के बारे में सोचने में समय नहीं बिताता। मेरा पूरा ध्यान खुद को फिट और स्वस्थ रखने पर है। मैं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं, और शायद यही वजह है कि मैं बेहतर खेल पा रहा हूं।



या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला कोच लियोनेल स्कालोनी ही करेंगे। मेसी ने यह भी स्वीकार किया कि मैच के नौवें मिनट में उनसे पेनल्टी मिस होने का असर टीम पर कुछ समय के लिए पड़ा था। उन्होंने कहा कि टीम ने दो-तीन आसान मौके भी गंवाए, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों ने वापसी करते बेहतर तरीके से फुटबॉल खेली।

दूसरी बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए मुशफिकुर रहीम

दुबई,एजेसी। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को मई 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मुशफिकुर ने अपने ही देश के साथी खिलाड़ी तैजुल इस्लाम और नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को पछाड़कर करियर में दूसरी बार यह अवॉर्ड जीता है। इससे पहले उन्होंने मई 2021 में यह खिताब अपने नाम किया था। मुशफिकुर रहीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत पाकिस्तान को खिलाफ बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 39 वर्षीय मुशफिकुर ने दो टेस्ट मुकाबलों में 63.25 की औसत से 253 रन बनाए। इससे बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में मदद मिली। मुशफिकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 71 रन बनाए थे, जिसके बाद 22 रन की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे।

अवॉर्ड मिलने के बाद मुशफिकुर ने कहा, फिर से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना बहुत सम्मान की बात है। मुझे



इसकी बहुत खुशी है कि यह सम्मान मुझे टेस्ट क्रिकेट में मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी यादगार सीरीज जीत में मेरे साथी खिलाड़ी तैजुल ने अहम भूमिका निभाई। यह जीत हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे। हमारी जीत से हमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में भी मदद मिली, जिससे टीम के लिए यह उपलब्धि और भी खास हो गई है। मैं अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आगामी महीनों में बांग्लादेश की सफलता में और योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। मुशफिकुर रहीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन, लीडरशिप और दबाव में खेलने की काबिलियत की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला और बांग्लादेश ने 2-0 से शानदार जीत दर्ज की। यह नया सम्मान बांग्लादेश क्रिकेट के लिए मुशफिकुर की अहमियत को दिखाता है। मुशफिकुर अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ सीरीज में यादगार जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश की उम्मीदों को भी मजबूत किया है।

रवि बिश्नोई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर क्रिकेट लीग IHL के ब्रांड एंबेसडर बने; सीज़न 2 के लिए बड़े राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा

दुबई,एजेसी। भारतीय हेल्थकेयर लीग (IHL), जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर क्रिकेट लीग और भारत के प्रमुख क्रिकेट-आधारित हेल्थकेयर जागरूकता मंच के रूप में जाना जाता है, ने सीज़न 2 के लिए बड़े विस्तार की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट स्टार रवि बिश्नोई लीग के आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. भगवान बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, राजेश बिश्नोई, रोहित झालानी, शुभम चौधरी और सुनील शर्मा मौजूद रहे।

यह घोषणा IHL की उस यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका मकसद पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव), कैंसर के प्रति जागरूकता, वेलनेस शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट की ताकत का इस्तेमाल करना है।

व्हाइट कोट स्पोर्ट्स द्वारा प्रमोट की गई इंडियन हेल्थकेयर लीग को देश भर के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को एक साझा खेल मंच पर लाने और हेल्थकेयर जागरूकता पहलों के ज़रिए समाज पर सार्थक प्रभाव डालने के विज़न के साथ शुरू किया गया था। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फेंचाइजी वाले सफल पहले सीज़न के बाद, लीग अब राष्ट्रीय विकास और विस्तार के एक



नए चरण में प्रवेश कर रही है।

अपने मिशन और रणनीतिक दिशा को मजबूत करने के लिए, द्धार ने भारत के कुछ सबसे सम्मानित हेल्थकेयर लीडर्स की नियुक्ति की घोषणा की है। इंडियन कार्डिसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के पूर्व महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, चीफ लीग एडवाइज़र के तौर पर शामिल हुए हैं। जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जी.के. रथ को लीग मेंटर नियुक्त किया गया है, जबकि महारूर हेल्थकेयर लीडर डॉ. महेंद्र कुमार लीग संरक्षक (Patron) के तौर पर लीग में शामिल हुए हैं। लीग ने डॉ.

अधीर यादव और सेजल मेहता की सक्रिय भागीदारी से अपने लीडरशिप इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। ये दोनों देश भर में लीग की ग्रोथ, स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और विस्तार की पहलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस मौके पर व्हाइट कोट स्पोर्ट्स के एग्ज्क्यूटिव और इंडियन हेल्थकेयर लीग के फाउंडर डॉ. राहुल मंगल ने कहा, द्धार के साथ रवि बिश्नोई का जुड़ना हमारे मूवमेंट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। क्रिकेट में लाखों लोगों को प्रेरित करने की क्षमता है, और हम साथ मिलकर प्रिवेंटिव

हेल्थकेयर, कैंसर के प्रति जागरूकता, फिजिकल फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हेल्थकेयर के जाने-माने लीडर्स के मार्गदर्शन और हमारे लीग इकोसिस्टम के विस्तार के साथ, हम खेल के माध्यम से एक मजबूत और स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस जुड़ाव पर खुशी जाहिर करते हुए इंडियन हेल्थकेयर लीग के ब्रांड एंबेसडर रवि बिश्नोई ने कहा, मैं ब्रांड एंबेसडर के तौर पर इंडियन हेल्थकेयर लीग से जुड़कर बहुत खुश हूँ।

अपनी खुशी बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने पर बोले वैभव सूर्यवंशी



नई दिल्ली ,एजेसी। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाले वैभव सूर्यवंशी ने उस भावनात्मक पल को याद किया है, जब उन्हें पहली बार भारतीय टीम की जर्सी दी गई। वैभव ने कहा है कि उस पल उन्हें लगा कि सबसे पहली बार उन्होंने बैट क्यों उठाया था। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में वैभव ने कहा, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने जिस वजह से पहले दिन से बल्ल उठाया और अभ्यास के लिए मैदान पर गया। वह सपना अब पूरा हो गया है। उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज पूरा हुआ। मैं सच में इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वैभव ने कहा, मैंने जब वह टी-शर्ट देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह एक सपना हो। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें उस समय प्रतिक्रिया देने किए शब्द नहीं मिलते। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। बीसीसीआई ने वीडियो का कैप्शन दिया है, लेडीज एंड जेंटलमेन, जिस पल का देश इंतजार कर रहा था, वो आ गया है। वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में, इस बहुत खास पल के गवाह बनें। वैभव सूर्यवंशी को 15 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया था। वैभव ने अपने चयन के साथ ही सबसे कम उम्र में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

आईसीसी ने महिला क्रिकेटर्स के लिए प्रेगनेंसी के बाद खेल में वापसी की गाइडलाइंस जारी कीं

दुबई ,एजेसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को प्रेगनेंसी के बाद खेल में वापसी की गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस महिला क्रिकेटर्स, मेंबर बोर्ड और मेडिकल स्टाफ को एक व्यवस्थित ढांचा देती हैं, ताकि बच्चे के जन्म के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने वाली खिलाड़ियों को मदद की जा सके।

आईसीसी के बड़े 100 प्रतिशत क्रिकेट पहल के हिस्से के तौर पर इन गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर न

देखा जाए। इन गाइडलाइंस में छह चरणों वाला 6 आर तरीका शामिल है:डू रेडी (तैयार होना), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से कंडीशनिंग), रिटर्न (वापसी) और रीफाइन (बेहतर बनाना)। इनमें रिकवरी, मेडिकल रिव्यू, धीरे-धीरे ट्रेनिंग, क्रिकेट-स्पेसिफिक कंडीशनिंग, प्रतियोगिता में वापसी और आगे की निगरानी शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अधिकतर महिला क्रिकेटर्स अपने करियर के दौरान फ़िरवार शुरू करने और फिर सफलतापूर्वक मैदान पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए लौटने का विकल्प चुन रही हैं।



वीजा की निराशा से मियामी के सुइट तक:काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा की मां कैसे फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचीं

मियामी ,एजेसी। काबो वर्डे ने 15 जून को रफ-एच के अपने पहले मैच में स्पेन के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेला। जब इस मुकाबले के बाद काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा मैदान से बाहर निकले, तो उनका ध्यान हजारों मील दूर अपनी मां की ओर गया। 6 दिन बाद, एना कैडिडा एबोरा मियामी में एक सुइट में थीं, जहां काबो वर्डे का मुकाबला उरुग्वे से हो रहा था। इस तरह उन्होंने एक ऐसा सफर पूरा किया, जो वर्ल्ड कप की सबसे चर्चित मानवीय कहानियों में से एक बन गया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एना मियामी स्टेडियम में काबो वर्डे का झंडा लेकर और अपने बेटे का नाम और नंबर लिखी शर्ट पहनकर पहुंची थीं। मैच से पहले, उन्होंने फीफा की तरफ से जारी एक वीडियो में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस यात्रा को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी फैस और



लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में मेरी मदद की। साथ ही, उनका भी जो टीम का समर्थन करते हैं। हम सभी काबो वर्डे का समर्थन कर रहे हैं, ताकि वे अच्छे खेलें और मैदान पर शानदार प्रदर्शन करें।

अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने जोश के साथ कहा- आगे बढ़ो, ब्लू शार्क्स। जब वार्म-अप के दौरान स्टेडियम की स्क्रीन पर वोजिन्हा दिखे और जब टीमों का परिचय कराया गया, तो फैस ने उनका उत्साह बढ़ाया। सोमवार को उरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुए मैच में गोलकीपर ने टीम को संभाले रखा। भले ही वे स्पेन के खिलाफ जितने अहम थे, उतने यहां नहीं दिखे। काबो वर्डे ने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तनावपूर्ण अंत के बावजूद एक और कीमती प्लेइंट हासिल किया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल की अध्यक्षता में मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद समिति ने किया विमर्श

परोपकारी संस्थाओं के प्रोत्साहन से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का किया जाएगा सशक्तीकरण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में वल्लभ भवन भोपाल में मध्यप्रदेश (परोपकारी संस्थाओं के लिए) मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद समिति ने विमर्श किया बैठक में प्रस्तावित नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और समिति के सदस्यों ने नीति को जन-केंद्रित सेवा-उन्मुख, गरीब एवं वंचित वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए बैठक में मंत्रिपरिषद समिति के सदस्य सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मती राधा सिंह सहित अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं



चिकित्सा शिक्षा अशोक बर्णवाल आयुक्त धनराजू एस तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना समय की आवश्यकता है विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए

परोपकारी संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा-भाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आमजन तक पहुंचाना है वर्तमान में प्रदेश गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना कर रहा है सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित

उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान मुख्यतः बड़े शहरों तक सीमित हैं जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के नागरिकों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करती है प्रस्तावित नीति का उद्देश्य प्रदेश में उच्चस्तरीय तृतीयक एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना को प्रोत्साहित करना,

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना विशेषज्ञ एवं एमबीबीएस चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाना गरीब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना अन्य राज्यों में उपचार हेतु मरीजों के पलायन को कम करना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाना है नीति के अंतर्गत केवल सेवा-उन्मुख एवं लाभ-निरपेक्ष परोपकारी संस्थाओं को पात्र माना जाएगा इनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत धार्मिक ट्रस्ट तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं शामिल हो सकेंगी पात्र संस्थाओं के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का पंजीकरण एवं सेवा गतिविधियों का संतोषजनक अनुभव होना प्रस्तावित किया गया है चिकित्सा महाविद्यालय एवं नर्सिंग कॉलेज जैसी अतिरिक्त सुविधाएं

विकसित करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दिए जाने का भी प्रस्ताव है बैठक में प्रस्तावित प्रोत्साहनों की भी समीक्षा की गई इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि का चयन कर रियायती दरों पर दीर्घकालीन लीज पर उपलब्ध कराने, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं हेतु उच्च लागत वाले चिकित्सा उपकरणों पर निर्धारित शर्तों के अधीन अनुदान उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्वीकृतियों के लिए सिंगल-पॉइंट क्लियरेंस प्रणाली विकसित करने जैसे प्रावधानों पर चर्चा की गई इमर्जेंसीरिपद समिति ने नीति के प्रारूप का परीक्षण करते हुए सुझाव दिया कि इसके सभी प्रावधानों का केंद्रबिंदु आमजन, विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए समिति ने नीति को अधिक सेवा-उन्मुख, पारदर्शी एवं जगदीश मिश्र स्वरूप प्रदान करने पर बल दिया।

रीवा के अहीर गांव में बारतियों का बवाल मामूली टक्कर के बाद चाकू से हमला, कार में तोड़फोड़ और बाइक में लगाई आग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के अहीर गांव में मंगलवार सुबह एक मामूली सड़क दुर्घटना ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। कार और ऑटो की हल्की टक्कर के बाद बारात में शामिल लोगों ने जमकर उचाट मचाया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना के दौरान कार चालक पर चाकू से हमला किया गया, वाहन में तोड़फोड़ की गई और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया जानकारी के अनुसार, सौंधिया परिवार की बारात मंगलवार सुबह अहीर गांव से रीवा की ओर जा रही थी। सुबह करीब 10:30 बजे गांव के पास बारात में शामिल एक ऑटो और कार के बीच मामूली टक्कर हो गई। कार में सवार योगेंद्र सिंह बघेल, जो सीधी से अपने जीजा से मिलकर अहीर गांव स्थित घर लौट रहे थे, इस घटना का शिकार हो गए टक्कर के बाद दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे गंभीर विवाद में बदल गई। इसी दौरान ऑटो में सवार कुछ बारातियों ने उग्र



होकर योगेंद्र सिंह बघेल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमलावरों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और पास खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और स्थानीय लोग दहशत में आ गए सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस मामले पर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस ने घटना में शामिल सभी लोगों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की बात कही है।

नगर निगम का विशेष सफाई अभियान: वर्षाकाल को देखते हुए नालों की व्यापक सफाई, जलभराव रोकथाम पर जोर



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। महापौर एवं निगमायुक्त के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आगामी वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए शहर में जलभराव की समस्या की रोकथाम और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़

बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान निरंतर चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख नालों एवं नालियों की व्यापक सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसी क्रम में 23 जून को नगर निगम की नाला गैंग टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में व्यापक सफाई कार्य किया गया। वार्ड क्रमांक 4 में खैरी हवेली के सामने स्थित बड़े नाले की सफाई कर उसमें जमा गाद और कचरे को हटाया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 30 एवं 31 के अल्लारख क्षेत्र में स्थित बड़े

नाले से बोरी प्लास्टिक कचरा और अन्य अवरोधों को हटाकर जल प्रवाह को सुचारु किया गया इसके अलावा वार्ड क्रमांक 14 में मारुति स्कूल के पास स्थित बड़ी नाली की सफाई की गई जबकि वार्ड क्रमांक 15 में विहान हॉस्पिटल के पीछे नाले के चैंबर खोलकर तल्ली से गाद निकालने का कार्य किया गया इसी वार्ड के बेलौहन टोला क्षेत्र में भी बड़ी नाली की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया सफाई कार्य के दौरान नालों में जमा मिट्टी, गाद प्लास्टिक, कचरा एवं अन्य अवरोधों को हटाकर जल प्रवाह

को सुचारु बनाए रखने के प्रयास किए गए अभियान के पश्चात निकली गाद और कचरे का तत्काल उठाव टैंपो एवं ट्रैक्टरों के माध्यम से किया गया, जिससे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे नगर निगम रीवा ने नागरिकों से अपील की है कि वे नालों एवं नालियों में कचरा प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री न डालें साथ ही शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें निगम का कहना है कि जनसहभागिता से ही स्वच्छ और सुरक्षित शहर का निर्माण संभव है।

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने किया स्कूल तथा छात्रावासों का निरीक्षण



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव रीवा जिले के भ्रमण के दौरान स्कूलों तथा छात्रावासों का निरीक्षण किया अध्यक्ष ने शासकीय पीके सांदीपनि विद्यालय तथा शासकीय एस्के हायर सेकण्ड्री स्कूल का निरीक्षण करते हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के

लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली उन्होंने प्रचार्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कक्षा आठवीं के बाद ही करियर संबंधी मार्गदर्शन दें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएं अध्यक्ष जाटव ने शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति सीनियर और जूनियर छात्रावासों का निरीक्षण किया अध्यक्ष ने छात्रावास में पेयजल व्यवस्था टायलेंट की साफ-सफाई तथा बिजली की फिटिंग में सुधार के निर्देश दिए

अध्यक्ष ने छात्राओं से छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं तथा कठिनाईयों की जानकारी ली छात्राओं ने बताया कि भवन पुनरा होने के कारण दीवारों में सीपेज रहता है तथा छत से पानी टपकता है अध्यक्ष ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दोनों छात्रावास भवनों में आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराएं छात्रावास में कूलर तथा वाटर कूलर की भी व्यवस्था करें छात्राओं को ऑनलाइन फर्माई की सुविधा देने के लिए फर्माईफाई सिस्टम लगावाएं छात्रावास परिसर में समुचित साफ-सफाई कराएं जिससे जहरीले जीव-जंतुओं का भय न रहे।

जनपद पंचायत में बड़ा सियासी संकट: भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप के गंभीर आरोप

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले की एक जनपद पंचायत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है जहां जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सहित कुल 22 सदस्यों ने अध्यक्ष संगीता यादव के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर और जिला प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है मामले ने प्रशासनिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है और अब जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरे टिकी हैं शिकायत पत्र में जनपद अध्यक्ष संगीता यादव पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं सदस्यों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और कई निर्णय नियमों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से लिए जा रहे हैं आरोपों के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्य आवंटन में भी भेदभाव किया जा रहा है जिससे जनप्रतिनिधियों में अस्तोष लगातार बढ़ता जा रहा है इसके अलावा शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जनपद अध्यक्ष के पति लगातार पंचायत के प्रशासनिक और विकास कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं सदस्यों का कहना है कि यह हस्तक्षेप ने केवल कार्यक्षमता की प्रभावित कर रहा है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है उपाध्यक्ष और महिला सदस्यों के साथ अमर्यादित भाषा के प्रयोग के आरोप भी पत्र में शामिल किए गए हैं जिससे जनपद पंचायत के भीतर तनाव की स्थिति बनी हुई है 22 जनपद सदस्यों ने संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है।

सिरमौर-डुभौरा सड़क पैचिंग कार्य पर उठे सवाल

8 करोड़ के टेंडर में अनियमितताओं और अधूरे निर्माण के आरोप, जनता ने जांच की मांग की

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले की बहुचर्चित सिरमौर से डुभौरा सड़क एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सड़क मरम्मत और पैचिंग कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर गरमा गया है स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत पैचिंग कार्य पूरा नहीं किया गया और जहां काम हुआ भी है वहां गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं जानकारी के अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व इस सड़क मरम्मत कार्य का टेंडर जारी किया गया था। आरोप है कि निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी सड़क की मरम्मत के बजाय केवल कुछ हिस्सों में ही डमरियल और पैचवर्क किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कहीं 50 मीटर,



कहीं 150 मीटर और अधिकतम 500 मीटर तक ही काम किया गया जबकि कई हिस्से पूरी तरह जर्जर स्थिति में छोड़ दिए गए हैं जनचर्चा में यह भी दावा किया जा रहा है कि स्वीकृत राशि का बड़ा हिस्सा कार्यों में उपयोग नहीं हुआ जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई जा रही है हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि किसी भी स्तर पर नहीं हुई है युवा कांग्रेस नेता बलराम तिवारी ने आरोप लगाया है कि अधूरा और

अमानक कार्य के कारण सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पैचवर्क में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता भी बेहद खराब है जिससे कुछ ही समय में डामर उखड़ने लगा है और गिट्टी सड़क पर फैल रही है उन्होंने सिरमौर विधायक से इस मामले में हस्तक्षेप कर अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग की है वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है फिलहाल सड़क का कार्य बंद होने और जर्जर स्थिति बनी रहने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता ने प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि निर्माण कार्य में हुई वास्तविकता स्पष्ट हो सके और जिम्मेदारी तय की जा सके।



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नवागत कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने कमिश्नर कार्यालय में आमजनता के आवेदन पत्रों की सुनवाई की। कमिश्नर ने कहा कि संबंधित अधिकारी सात दिन की समय सीमा में जनसुनवाई के आवेदनों का समुचित निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें आवेदक को भी प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराएं समय सीमा का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जनसुनवाई में वीरेंद्र प्रसाद



ने 2013 में दिए गए प्रशिक्षण के बाद गौसेवक के रूप में पंजीयन करने के लिए आवेदन दिया कमिश्नर ने संयुक्त संचालक पशुपालन को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए राजेश सिंह निवासी रामनगर तहसील ने रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए कार्यवाही का आवेदन दिया कमिश्नर ने कलेक्टर मेहर को टीम बनाकर मौके पर कार्यवाही के निर्देश दिए जनसुनवाई में संयुक्त आर्युक्त दिया त्रिपाठी तथा उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार उपस्थित रहे।

हटाने के लिए आवेदन दिया। कमिश्नर ने अधीक्षण यंत्री पीएचई को आवेदन में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। हनुमानदास गुप्ता निवासी ग्राम फरहाद जिला मऊगंज ने जमीन के सीमांकन के बाद कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया कमिश्नर ने टेलीफोन के माध्यम से तहसीलदार मऊगंज को प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए मिथिलेश सिंह निवासी ग्राम तेदुआ ने नहर निर्माण के लिए 2016 में अधिग्रहीत भूमि का

रीवा संभाग के कमिश्नर बी.एस. जामोद को भावभीनी विदाई, नवागत कमिश्नर शैलेंद्र सिंह का हुआ आत्मीय स्वागत

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा संभाग के स्थानांतरित कमिश्नर बी.एस. जामोद को राजस्व पुलिस एवं संभागीय अधिकारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्हें शॉल, फूल, स्मृति चिन्ह एवं पुष्पहार भेंट कर सम्मानित किया गया कार्यक्रम में नवागत कमिश्नर शैलेंद्र सिंह का भी आत्मीय स्वागत किया गया समारोह को संबोधित करते हुए नवागत कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जामोद उनके लंबे समय से मित्र हैं उन्होंने कहा कि जामोद की सहज कार्यशैली, प्रशासनिक सूझबूझ तथा कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता सरहनीय रही है सिंह ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी अधिकारी अपने पदीय



दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करें तथा संभाग के विकास में सक्रिय योगदान दें स्थानांतरित कमिश्नर बी.एस. जामोद ने अपने संबोधन में कहा कि रीवा में उनका लगभग दो वर्षों का कार्यकाल हमेशा स्मरणीय रहेगा उन्होंने कहा कि यहां के अधिकारी परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं, जिनके सहयोग से प्रशासनिक कार्यों में उल्लेखनीय

प्रगति संभव हुई उन्होंने कहा कि रीवा संभाग जो पहले कई मामलों में पीछे माना जाता था, अब कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार कर चुका है उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस व्यवस्था में रीवा संभाग पिछले आठ महीनों से प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है इसके साथ ही ऑपरेशन निखार के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए



गए जिसके सकारात्मक परिणाम बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है जामोद ने कहा कि संभागीय अधिकारियों ने अपने विभागीय दायित्वों के साथ अन्य विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं आम

नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रीवा का अनुभव उनके लिए सदैव यादगार रहेगा उन्होंने नवागत कमिश्नर शैलेंद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक अनुभवी सरल एवं नवाचार के प्रति समर्पित अधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में रीवा संभाग निरंतर प्रगति करेगा उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सिंह के

छिंदवाड़ा जिले में वॉश ऑन व्हील कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है कार्यक्रम में कलेक्टर सतना सतीश कुमार एस, कलेक्टर सिंगरीली गौरव बैनल, कलेक्टर सीधी विकास मिश्र, पुलिस अधीक्षक मेहर अवधेश सिंह, सीईओ जिला पंचायत सिंगरीली जगदीश गोमे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जामोद के कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला समारोह में डीएफओ लोकेश निरगुण, एडीएम रीवा सपना त्रिपाठी, सीईओ जिला पंचायत रीवा मेहाबब सिंह गुजर सहित संभाग के सभी जिलों के राजस्व एवं पुलिस अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

जोरौट गांव में बंद मकान में भीषण आग: लाखों का सामान जलकर राख, कारणों की जांच जारी

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले के जोरौट गांव में मंगलवार दोपहर एक बंद मकान में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। इस हादसे में मकान के अंदर रखा लाखों रुपये का धोरेल सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार, यह मकान जोरौट निवासी अर्जुन शर्मा का है जिनका परिवार वर्तमान में नागपुर में निवास करता है। गांव में स्थित मकान लंबे समय से बंद था और उसमें ताला लगा था। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे ग्रामीणों ने मकान से धुआं और आग की लपटें उड़ती देखीं, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मकान मालिक और प्रशासन को दी घटना की

जानकारी मिलते ही मऊगंज से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायरमैन घणश्याम और उनकी टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और मकान के भीतर रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था ग्रामीणों के अनुसार, घर में रखा फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य धोरेल उपयोग का सामान पूरी तरह जल गया है। प्रांरंभिक अनुमान के मुताबिक इस आगजनी में करीब एक लाख रुपये या उससे अधिक का नुकसान होने की आशंका जलाई जा रही है फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं स्थानीय प्रशासन को घटना के जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।